

लक्ष्यों की प्राप्ति सरकार दुढ़..



संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने



स्कूलों ने बच्चों से मांगी पुरानी किताबें, नहीं ले सके छठवीं का टेस्ट तो खाली भेज दी शीट

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

जिले के सरकारी स्कूलों में इन दिनों बच्चों के लिए मौखिक आदेश जारी किए गए हैं। अगली कक्षा में पहुंच चुके छात्रों से उनकी पुरानी कक्षा की किताबें मांगी जा रही है, ताकि नए बच्चों को पढ़ाया जा सके। दरअसल, स्कूलों में अब तक कई विषयों की किताबें नहीं पहंच सकी हैं। इनमें चौथी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक शामिल है। इसके अलावा सातवीं कक्षा की गणित, आठवीं कक्षा की गणित और

सामाजिक विज्ञान भाग-2 भी कम संख्या में पहुंची है। मांग

अब तक नहीं पहुंची विद्यालयों में चौथी कक्षा की हिंदी किताब, 7वीं की गणित भी कम संख्या में मिली

त्रैमासिक परीक्षा को लेकर द्विधा

छठवीं कक्षा में अब गणित विषय की पढ़ाई शुरू ही नहीं हो सकी है। राज्य शैक्षिक हिस्सि सर्वाकार विश्व विश्व प्राप्त है। प्राप्त क्ष्म के पाठ्यक्रम में बद्ध पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में बद्ध पा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा छठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है, इसलिए पुरानी किताब से पढ़ाने का विकल्प भी नहीं है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रत्येक कक्षा में मासिक

कक्षा के पाट्यक्रम में बदलाव इसलिए परानी किताबों से नहीं



आई है, उसकी यथाशीघ्र आपूर्ति का प्रयास कर रहे हैं। तीन-चार दिनों में किताबें स्कुलों तक पहुंच जाएंगी। - डिगेश पटेल किताब से पढाया जा रहा है। लगातार खत लिखे जाने के बाद भी पुस्तकें नहीं मिलने के बाद शासकीय विद्यालय अंततः अपने ही छात्रों से मदद मांग रहे हैं। चूंकि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को नई किताबें मिलती हैं, ऐसे में अधिकतर छात्र अपनी किताबें संभालकर नहीं रखते . अथवा रही में दे देते हैं। इसके कारण अनरोध के बाद भी स्कलों को छात्रों से परानी पस्तकें नहीं मिल पा रही हैं। रायपर सहित

से कम पुस्तकें मिलने के कारण दो-तीन छात्रों को एक ही

कई जिलों में किताबें कम संख्या में पहंची हैं। निजी विद्यालयों को भी किताबें नहीं मिल सकी हैं। वे निजी प्रकाशकों की किताबों से अध्यापन करा रहे हैं। शासकीय विद्यालयों के पास विकल्प नहीं होने के कारण वे संकट में हैं।

खबर संक्षेप

दो पक्षों में मारपीट काउंटर केस दर्ज

रायपुर। टिकरापारा क्षेत्र में दो पक्षों के बींच मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर अपराध दर्ज किया है। संजय नगर आरडीए फ्लैट में रहने वाले दो परिवारों के बीच आपसी विवाद पर मारपीट हो गई। इस मामले में अमीमा फातिमा ने जोयब खान, साहदिया एवं अन्य दो के विरुद्ध गाली-गलौच कर मारपीट की शिकायत की है। इसी प्रकार दूसरे पक्ष से जोयब खान ने भी अमीमा फातिमा के विरुद्ध गाली-गलौच कर मारपीट करने की शिकायत की है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर अपराध दर्ज किया है।

शराब पीने पैसे नहीं देने पर महिला को पीटा

रायपर। सिविल लाइंस पलिस ने मारपीट के मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। घटना गांधीनगर पंडरी की है।प्रार्थिया दोहना जगत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी छवि महानंद ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। उसने जब पैसे देने से मना कर दिया तो इस बात पर गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का से उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है।

देशी शराब बरामद, एक कोचिया गिरफ्तार

रायपुर। उरला पुलिस ने आबकारी एक्ट के मामले में एक कोचिए को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 8 सितंबर को रात करीब 7 बजे ग्राम अछोली के पास एक युवक को संदिग्ध हालत में घूमते पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 8 पौवा देशी शराब एवं 8 सौ रुपए बिक्री की रकम मिली। पुछताछ में आरोपी की पहचान तुलाराम ढीढी निवासी अछोली के रूप में हुई। उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट 34-1 ब के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

चाकू बरामद, एक गिरफ्तार

रायपुर। मोवा पुलिस ने एक युवक को चाकु लेकर घुमते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अमन मिश्रा 9 सितंबर को चाकू लेकर रात करीब 12 बजे दुर्ग कालोनी मेन रोड के पास घुम रहा था। उसे मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया तथा उससे चाकु जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के मामले में अपराध दर्ज किया है।

हरिभूमि न्यूज≯ेेेे रायपुर

न्यू राजेंद्रनगर पुलिस ने एक युवक

के साथ मारपीट करने के मामले में

अज्ञात चार आरोपियों के विरुद्ध

अपराध दर्ज किया है। घटना

अमलीडीह तालाब के पास 6

सितंबर की रात करीब 11.45 बजे

की है। प्रार्थी बी. घनश्याम साई ने

रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपनी

बाइक से घर जा रहा था, तभी

टेस्ट लेने आदेश दिए गए थे। छठवीं कक्षा में गणित विषय की पढाई ही नहीं हो सकी, इसलिए स्कूलों ने मंथली टेस्ट शीट खाली ही भेज दी है। शैक्षणिक कैलेंडर



पूर्व विस अध्यक्ष के बेटे से 58 लाख की धोखाधड़ी, केस दर्ज

हरिभुमि न्युज 🕪 रायपुर

छत्तीसगढ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के बेटा नितिन अग्रवाल धोखाधडी के शिकार हो गए। राजधानी रायपर के जीई रोड स्थित फेडरल बैंक में उनका खाता खुला है, जिसमें रखे 58 लाख 5 हजार रुपए को किसी ने दूसरे बैंक के

अलग-अलग

3 खातों में

ट्रांसफर हुई

बैंक से अलग-अलग तीन खातों में ट्रांसफर कर दिया है। नितिन अग्रवाल ने इस मामले में शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि यह रकम बैंक के अधिकारियों ने उनसे बिना अनुमति लिए ट्रांसफर की है। फिलहाल आजाद चौक पुलिस ने

नितिन अग्रवाल की शिकायत पर अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। आजाद चौक पुलिस के अनुसार नितिन अग्रवाल

निवासी स्वर्ण भूमि मोवा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके नाम पर क्राउन विला 🔛 शोष पेज 13 पर

मिलीमगत या साइबर फ्रांड यह धोखाधड़ी बैंक जांच में होगा खुलासा

या फिर यह भी साइबर फ्रांड का हिस्सा है, इसका खुलासा

के अनुसार, सितंबर माह में त्रैमासिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। कुछ सप्ताह ही शेष होने के कारण विद्यालय इसे लेकर भी द्विधा में हैं।

गणपति विसर्जन के दौरान घूमते गुंडे-बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

विसर्जन झांकी में गुंडागर्दी रोकने कड़े उतरवाए

20 किलो जब्त, कैंची-चाकू के साथ भी पकड़े गए

१० नाबालिगों को समझाइश देकर छोडा

इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शरारत करते 10 नाबालिग लडकों को भी पकड़ा था, जिनके परिजनों को थाने में बुलाकर कड़ाई से समझाइश देने के बाद छोड़ा। पुलिस की सख्त व्यवस्था की वजह से इस बार चाकुबाजी जैसी गंभीर घटना नहीं हुई। पुलिस ने झांकी रूट पर जांच पडताल के अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी थी। मार्ग पर 600 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। सुबह तक सुरक्षा जवान डटे रहे।



असामाजिक एवं शरारती तत्व भी पकडे गए पुलिस ने गणेश विसर्जन झांकी

कें दौरान जयस्तंभ चौक से लेकर महादेव घाट तक 100 से अधिक असामाजिक एवं शरारती को भी चिन्हांकित कर पकडा। इन सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को भी पकडकर उनके हाथों से लोहा एवं अन्य धातु से बने कड़ों को उतरवाकर जब्ती बनाया। पुलिस के अनुसार कुछ असमाजिक तत्व कड़ा से मारपीट करते पकडे गए। इस मामले में कार्रवाई 🔛 शेष पेज 13 पर

हिअरजॅ**प**"

पुलिस की जांच के बाद ही होगा। बहरहाल पुलिस नें शिकायत पर धारा 173 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। इन दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है।

कपड़े, जूते, हर्बल उत्पाद और शिल्पकला की वस्तुएं मिलेंगी

एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन में खुलेंगी प्रीमियम ब्रांड की दुकानें

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

राजधानी रायपर में गणेश विसर्जन झांकी के दौरान

चाक, कैंची लेंकर घमते डेढ दर्जन से अधिक को

पलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 100

से ज्यादा गुंडे-बदमाश एवं असामाजिक तथा

शरारती तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के

तहत कार्रवाई की है। इसके साथ ही पुलिस ने

झांकी के दौरान सैकड़ों लोगों के हाथों से लोहे एवं

अन्य धातु से बने कड़ा को उतरवाकर जब्ती

बनाया है। पुलिस ने इन कड़ों का कुल वजन 20

विसर्जन के लिए झांकियां निकाली गईं। ये झांकियां

ढोल-नगाडा, बैंड-बाजा एवं डीजे की धुन पर

निकाली गईं। धूमधाम से निकाली गई झांकियों के

▶।शोष पेज 13 पर

राजधानी में 8 सितंबर की रात को गणेश

किलोग्राम से ज्यादा आंका है।

दौरान कई तरह के

मंडल के रेलवे स्टेशनों में भी अब एयरपोर्ट की तर्ज पर ब्रांडेड कंपनियों की दुकानें खुलेंगी, जहां अच्छी क्वालिटी के कपड़े, जूते, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद, शिल्पकला समेत फैशन से जुड़ी

चीजें स्टेशनों

की दुकानों में

मिलेंगी। इसके

लिए रेलवे ने

आवदेन मंगाने

छत्तीसगढ के स्थानीय प्रीमियम ब्रांड को भी प्राथमिकता

शुरू कर दिए हैं। मंडल में आउटलेट्स रायपुर, दुर्ग, भाटापारा व भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर गैर-किराया राजस्व नीति के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। रायपुर में बड़ी कंपनियों के स्थापित होने से यात्रियों के लिए स्टेशन में सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इसके साथ दुर्ग और भिलाई पावर हाउस में यात्रियों की आवाजाही अधिक होती है। इसीलिए यहां भी कपडों और जुतों की दुकान खुलने से आर्थिक लाभ होने की अशेष पेज 13 पर

घटनास्थल पर रोड पर 3-4 लोग

घुम रहे थे, जिन्हें मार्ग से हटाने के

लिए जब उसने हार्न बजाया तो इस

बात पर सभी लोगों ने मिलकर

उसके साथ गाली-गलौच कर हाथ-

मुक्का से मारपीट की। इससे उसे

चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले में

आरोपियों के विरुद्ध बीएनएसः

296, 351-2, 115-2, 3-5 के तहत

अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की

एडिडास. रीबॉक जैसी कंपनियों के मिलेंगे कपडे व जते

इन आउटलेट्स में यात्रियों को यात्रा सहायक सामग्री जैसे सैमसोनाइट, वीआईपी, सफारी, अमेरिकन दूरिस्टर, परिधान एवं फैशन बांड्स जैसे एरो, वैन ह्यूसन, बीबा, पीटर इंग्लैंड, फेबइंडिया, जूते एवं खेल परिधान जैसे नाइकी, एडिडास, प्रमा, रीबॉक उपलब्ध होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय ਧ਼ੀਸਿਧਸ ਗ਼ਂਤ੍સ जੈसੇ ₩शेष पेज 13 पर

स्टेशन में दुकान

सिर्फ बड़े भरोसेमंद और पहले से स्थापित ब्रांड ही दुकान खोले। अगर किसी बांड के पास एयरपोर्ट या मॉल पर दुकान चलाने का अनुभव है. तो उसे पहले मौका मिलेगा। रायपुर, दुर्ग, भाटापारा व भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर जगह उपलब्ध कराई जाएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में अभी तक कपड़े, जूते व फैशन से जुड़ी चीजे नहीं मिलती हैं। एयरपोर्ट की तर्ज पर दुकानों के खुलने से स्विधाएं 🕨 शेष पेज 13 पर

स्टेशनों में स्थापित किए जाएंगे

रायपर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर पतिष्ठित सिंगल बांड रिटेलर्स कंपनियों से प्रीमियम सिंगल ब्रांड आउटलेट्स सिंगल ब्रांड आउटलेट्स (गैर-खाद्य श्रेणियां स्थापित करने आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह आउटलेट्स रायपुर, दुर्ग, भाटापारा एवं भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशनों पर गैर-किराया राजस्व नीति के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे. जिसमें यात्रा सहायक सामग्री. परिधान एवं फैशन से संबंधित सामग्री, जूते एवं खेल परिधान एवं छत्तीसगढ़ के स्थानीय प्रीमियम ब्रांड को प्राथमिकता दी जाएगी।

- **अवधेश कुमार त्रिवेदी**, सीनियर डीसीएम, रायपुर रेल मंडल

उत्तरी हिस्से में दिखा बारिश का असर

नहीं गिरा पानी तो लगी गर्मी पारा बढ़कर ३४ डिग्री पर पहुंचा

हरिभूमि न्यूज▶े। रायपुर

पानी नहीं गिरने की वजह से उमसभरी गर्मी ने असर दिखाया। मंगलवार को राजधानी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक था। बरसात का प्रभाव प्रदेश के उत्तरी हिस्से में नजर आया। अगले दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।

प्रदेश में सीजन की सामान्य वर्षा हो चुकी है और आने वाले दिनों में बनने वाले एकाध तगड़े सिस्टम के प्रभाव से यहां कोटा पूरा होने का अनुमान है। पिछले तीन दिनों से शहर में हल्की से मध्यम बारिश का दौर खंड वर्षा के रूप में जारी रहा है। मंगलवार को बादल छाए रहे, मगर



पानी नहीं गिरा, जिससे वातावरण में उमस बढ़ गई और लोगों ने असहजता महसूस की। दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की वजह से गर्मी भी महसूस हुई। पिछले की उम्मीद। अशेष पेज 13 पर



डॉ अनूप अग्रवाल,माँ दुर्गा क्लिनिक,अग्रसेन चौक,

पोस्ट ऑफिस के पास, दुर्गा लॉज के नीचे, (496445)

निःशुल्क बहरापन जांच

: 10 सितम्बर से 14 सितम्बर

: प्रात: 10:30 बजे से

शाम 7:30 बजे तक

: प्रात: 10:30 बजे से

दोपहर 3:00 बजे तक

एवं परामर्श शिविर

हम आपको सुनने में मदद करने

के लिए यहां हैं

दिनांक

समय

रविवार

3 9659 455 455



बैरन बाजार (रायपुर)

स्पीच थेरेपी

विमला सदन, छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास, फव्वारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ (492001)

श्रवण यंत्र पर भारी छूट

कोक्लियर इम्प्लांट (परामर्श)

भिलाई

शॉप नंबर- 107-108, डथीराज टावर्स, जी.ई. रोड, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़ (490023)

अविकापर

मनोज डायग्रोस्टिक सेंटर के ऊपर, मेन पोस्ट ऑफिस के पास, बाबुपारा, अविकापुर, छत्तीसगढ़ (497001)

कचहरी चौक (रायपुर)

शॉप नंबर- 14, कृष्णा काम्प्लेक्स, जिला एवं सल न्यायालय के सामने, कचहरी चौक, रायपुर, छत्तीसगढ (492001)

बिलासपर

शॉप नंबर- F5-F6, अम्बे बिजनेस सेंटर, LIC बिल्डिंग के सामने, मगरपारा रोड, मसानगंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (495001)

कोरबा

मकान संख्या 52 ए, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के पास, ब्लू वर्ड स्कूल के पीछे निहारिका रोड, कोसाबाडी, कोरबा (495677)

शंकर नगर (रायपुर) प्रथम तल, एस. आर. प्लाजा सेक्टर-3,

आरोग्य हॉस्पिटल के पास, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ (492004)

धमतरी

डॉ. सरोज कमार साहा क्लिनिक के ऊपर, धमतरी क्रिश्चियन (बटेना) हॉस्पिटल के पास, वेयरहाउस गोडाउन के सामने, रायपुर रोड, धमतरी (493773)

जगदलपुर

विनाका मॉल के सामने, चित्रकोट रोड, धरमपुरा, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ (494001)

श्रीनगर, डॉ ओ पी लेखवानी,शुभम् हॉस्पिटल,संध्या पेट्रोल (रायपर) पम्प के पास , गुढ़ियारी रोड , श्रीनगर, रायपुर (४९२००९)

छत्तीसगढ | महाराष्ट्र | कर्नाटक | केरळ | तामिळनाड | आंध्र प्रदेश | तेलंगाणा | पश्चिम बंगाल | बिहार | झारखंड

नंबर पर संपर्क करें या वाट्सअप करें

쨰 पाठक सूचना

हार्न बजाने की बात पर विवाद, अज्ञात ४ आरोपियों पर केस

हरिभामि के सुधि पाठकों को अखबार की प्रतियां नहीं मिल रही हो या अन्य अखबार दिया जा रहा हो तो हमें निम्न

9827555678, 8224868411



चौबीस घंटे में बारिश की मध्यम गतिविधि उत्तरी हिस्से में नजर आई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिन बरसात की गतिविधि कम रहेगी. इसके बाद दायरा बढने



डिजिटल सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही. पटवारी निलंबित

रायपुर। डिजिटल सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में आरंग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी बद्री प्रसाद टंडन को निलंबित कर दिया है। निलंबन के संबंध में आदेश भी जारी हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग के जारी आदेश के अनुसार एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एवं भुईंया सॉफ्टवेयर में गिरदावरी प्रविष्टि कार्य में पटवारी ने लापरवाही बरती है। पटवारी को तहसील आरंग के ग्राम अमसेना, कोड़ापार, धोबभट्टी, परसवानी, केशला एवं धौराभाठा में निर्धारित समय सीमा कार्य पूर्ण करना था, लेकिन उसके द्वारा नहीं किया गया। इसके साथ ही नियमों के विपरीत उसका आचरण पाया गया। इन कारणों से उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

प्रदेश के भाजपा सांसदों ने भी किया मतदान

रायपुर। उप राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को नई दिल्ली के संसद भवन में मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी मतदान किया। इस दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद व मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाण्डेय, सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी के साथ ही बुजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल. चिंतामणि महाराज राधेश्याम राठिया, कमलेश जांगडे, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, महेश कश्यप, भोजराज नाग और राज्यसभा सदस्य देवेन्द्रप्रताप सिंह ने मतदान किया। भाजपानीत राष्टीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इस चुनाव के लिए महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना

उम्मीदवार बनाया है।

मैं अपने पक्षकार श्री वसंत राजाराम देसाई

पिता स्व. श्री राजाराम विष्णु देसाई, मोबाइल

नम्बर 9713196994 वर्तमान पताः द्वारा श्री प्रशांत

वसंत देसाई. फ्लैट नं.305. श्री व्यंकटेश

अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 2 और 3, धरमपेठ गृह

निर्माण सहकारी संस्था जयप्रकाश नगर

खामला, नागपुर - (महाराष्ट्र) अपने रायपुर स्थित

अपने स्वत्व एवं आधिपत्य के मकान नंबर 148

आनंद प्रोविजन स्टोर्स के सामने, आनंद नगर

रायपुर, प.ह.न. 113/44 तहसील व जिला रायपुर

नजूल भूमि खसरा नं.- 68/1, 81/1, 305/1-

ऑनलाईन प्लाट नं. 1001/1 का प्लाट नं. 148

वार्ड क्रमांक 33 शहीद वीरनारायण वार्ड, रायप

नगर निगम UID No-: RPR332C00028 वे

एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य धारी हैं तथ

. वर्तमान में इसे विक्रय करने की किसी भी व्यक्ति

अथवा संस्था के साथ मौग्विक या लिग्वि

बातचीत नहीं किए हैं या अनबंध नहीं किए हैं औ

ना ही किसी को इस कार्य हेत अधिकत किए है

इसीलिए आम जनता से निवेदन है कि कोई र्भ

अन्य किसी भी व्यक्ति से मेरे पक्षकार की उपरोक

भूमि एवं उस पर बने मकान के संबंध में किसी

प्रकार की चर्चा अथवा अनबंध नहीं करेंगे अन्यथ

किसी भी व्यक्ति या संस्था को होने वाले किसी

नकसान के लिए मेरा पक्षकार जवाबदार नही

सी. मोतीसागर, अधिवक्ता

रायपुर (छत्तीसगढ)

मोती बाला बिल्डिंग, बैरन बाजार

मोबाइल नंबर 92294 90278

रहेगा। एतद् सूचना जाने

भाजपा के सेवा पखवाड़ा में रक्तदान, नमो मैराथन सहित होंगे कई कार्यक्रम

प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाडा में रक्तदान के साथ ही नमो मैराथन का भी आयोजन होगा। 17 से 2 अक्टबर तक रोज अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। इसमें प्रदेशभर के मंत्री, विधायक, सांसदों के साथ ही भाजपा के प्रदेश से लेकर बुथ स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. जिसके अंतर्गत स्कलों. चिकित्सालयों रेलवे स्टेशन. बस स्टेशन मंदिर सहित ऐतिहासिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी बथों पर पौधारोपण करेंगे।

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

नमो पार्क बनाने की योजना

प्रदेश सरकार, नगरीय निकायों के माध्यम से नमी पार्क भी बनाएं जाएंगे। सेवा पखवाडा कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर. स्वास्थ्य शिविर. भी आयोजित किये जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान दिव्यांग और राज्य के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। 25 सितंबर को प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वोकल फॉर लोकल पर कार्यक्रम होंगे। इसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाया देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र



मोदी के जीवन, विचार, नेतृत्व शैली और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तकों का स्कूलों, कॉलेज एवं पस्तकालयों में वितरित किया जाएगा।

खेलों का भी आयोजन

इस दौरान सांसद खेल-कद प्रतियोगिता. विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। नमो मैराथन का आयोजन भाजयुमो द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी जिला एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित की जाएगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पृष्पांजलि अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी व लाल बहादूर शास्त्री जंयती पर स्वाच्छता अभियान चलाया

सेवा पखवाडा के लिए चल रही कार्यशाला : अखिलेश सोनी

भाजपा प्रदेश महामंत्री व सेवा पखवाडा अभिया प्रदेश संयोजक अखिलेश सोनी ने कहा, हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसे लेकर जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया है जिसमें अभियान का सफल संचालन कैसे हो इस पर चर्चा की जा रही है। इस अभियान को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कार्याशाला का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल शामिल हुए थे। अब जिलों और मंडलों में कार्यशाला का आयोजन हो रहा है।

नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के निर्माण में प्रगति रिपोर्ट मार्गदर्शक सिद्ध होगी : चौधरी

हरिभूमि न्यूज≯ेेे रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।

यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मुल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव आशीष भट्ट तथा सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम उपस्थित थे।

//आम सूचना//

तर्यालय के पत्र क्रमांक 6896 दिनांक 29.09 202

के दाग कनीसगढ़ गह निर्माण मण्डल संपटा प्रबंधन

प्रक्षेत्र राजधानी परियोजना नवा रायपुर अटल नग

सेक्टर-29 में प्रकोष्ठ भवन क्रमांक-एम.आई.जी

म्लैट-28/104 को SHRI ABDUL RAUF

ANSARI S/O SHRI ABDUL KARIM

ANSARI के नाम पर नामांतरण (मृत्यु उपरांत)

कया गया है। वर्तमान में SHRI ABDUL RAUF

ANSARI S/O SHRI ABDUL KARIM

ANSARI, Address- e-3 4/b Arera

olony, Huzur, Bopal M.P.-462016 वे

ारा उक्त फ्लैट को क्रेता SMT. NIRAJ SINGI

W/O SHRI VIVEK KUMAR SINGH

Jhotana, Jakhanian Ghazipur, Utta

Pradesh-275203 को विक्रय करने के लि

प्रमापनि प्रमाण पत्र (एन ओ सी) प्रदाय करने हेत दर

अतः नवा रायपर अटल नगर सेक्टर-29

कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तत किया गया है।

स्थित प्रकोष्ठ भवन क्रमांक-एम. आई.जी. फ्लैट

28/104 के विक्रय के सबंध में किसी व्यक्ति

गासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक

ाथवा वित्तिय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो इस आग

सचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखि

ापत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्याल

में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति

संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

प्रक्षेत्र नवा रायपुर अटल नगर

र विचार नहीं किया जावेगा

Address-Gram-Jhotana.

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है. कि इर

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित: साय



सीएम साय ने कही ये बात

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बद रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल ढेकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी।

रिपोर्ट मार्गदर्शक साबित होगी : चौधरी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट न केवल नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतू महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

छत्तीसगढ़ बनेगा आदेश राज्य : जैन

राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह आकलन, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जिले को उसकी ताकत और चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक समर्थन और दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगा।

जिलों की रैंकिंग

गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार 82 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग तय की गई है। जिलों को चार श्रेणियोंएस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, वहीं 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में आए। धमतरी जिले ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचीवर श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा। 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबिक 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा। राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मुल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य परे कर लिए हैं। यह उपलब्धि राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाली है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि आगामी दो से तीन वर्षों में 83 संकेतकों के लक्ष्य भी हासिल कर लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री बोले- २०२६ में नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प अवश्य पूरा होगा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यनिफाइड कमांड की बैठक में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। युनिफाइड कमांड की बैठक में मुख्यमंत्री र्ने जानकारी दी कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। वहां किस तरह से लोगों का विश्वास जीतना है, गांव-गांव तक विकास पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने दोहराया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, संकल्प अवश्य पूरा होगा। सुरक्षा बल के जवान मुश्तैदी से लड़ाई लंड़ रहे हैं।

ये थे उपस्थित

बैठक में सीएम के साथ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एंसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्री कश्यप बोले- 28 तक 28 टुकड़ों में न बंट जाए कांग्रेस

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा. कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट 2028 का चुनाव एकजुट होकर लड़नें की बात कह रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। शायद 28 तंक कहीं कांग्रेस 28 भागों में न बंट जाए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के रायपुर प्रवास के बाद ही उन्हें कांग्रेसी शिकायतों का उपहार ढे रहे हैं। श्री कश्यप ने कहा, कांग्रेस में जिस तरह का बिखराव है, वह किसी से छिपा नहीं है। पहले पीसीसी फिर बीसीसी और अब बीबीसी के रास्ते पर कांग्रेस

का संगठन चल पड़ा है। बीबीबीसी यानी बाबा, भूपेश, बैज कमेटी के रूप में कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का वर्गीकरण हो गया है। उन्होंने कहा, इन सबके

बीच श्री पायलट को यह कहना पडा कि कांग्रेस अगला चुनाव एकजुटता के साथ लड़ेगी, लेकिन उनके छत्तीसगढ़ के लौटते ही कांग्रेस के शीर्ष लोगों में जो भीषण

वर्ग कोहराम होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सचिन पायलट की हर बातें उनके संगठन के भीतर कोई गंभीरता से नहीं लेता और जिस तरह की अनुशासनहीनता है वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा, दस जनपथ से चलने वाली कांग्रेस का ईश्वर ही मालिक है।

बाढ पीडितों के लिए भेजी एक टक राहत सामग्री

रायपुर। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और हैंप्पी सिब्बल ने मानवीय पहल करते हुए एक ट्रक राहत सामग्री रवाना की। राहत सामग्री में तालपत्री, मच्छरदानी, अनाज शामिल है। श्री जुनेजा और श्री सिब्बल ने बताया कि यह सहायता पंजाब के उन क्षेत्रों में भेजी जा रही है, जो वर्तमान में बाढ से अत्यधिक प्रभावित हैं और जहां जरूरतमंदों को त्वरित राहत की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्री जुनेजा ने कहा, "देश के किसी भी कोने में यदि कोई आपदा आती है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि एकजुट होकर मदद करें। यह हमारी सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी है।"श्री जुनेजा और सिब्बल ने आगे भी इस प्रकार की



दिया और सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी इस नेक कार्य में योगदान दें। राहत सामग्री रवाना करने के दौरान अनेक सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोचन चावला. इंद्रजीत सिंह, परगट सैनी, कुलदीप सब्बरवाल, अशोक खूबचंदानी मनजीत आहजा, कर्बोर सिब्बल, हरजीत जुनेजा, करण जुनेजा, पप्पू दामाखेड़ा व स्थानीय नागरिक भी

नए बजट की तैयारी शुरू

हरिभूमि न्यूज▶े। रायपुर

छत्तीसगढ सरकार के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट तैयार करने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही पिछले बजट २०२४-२५ का निष्पादन बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे विधानसभा संत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कार्यक्रम वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट, राजस्व प्राप्तियों की अलग-अलग प्रविष्टियों के लिए आनलाइन बजट माडयूल लिंक तथा हार्ड कापी एक दिन पहले जारी की गई है। इसके बाद 15 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2026 तक

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है, कि द्वारा अटल विहार आवास योजना आरंग जिला में अपना आवेदन प्रस्तत किया गया है।

जिला रायपुर में स्थित एल.आई.जी. टाईप — I / 99 के विक्रय के संबंध में किसी भी व्यक्ति शासकीय / अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र नवा रायपुर अटल नगर

सचिव स्तरीय राजस्व प्राप्तियों पर चर्चा, सचिव एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय संयुक्त बजट चर्चा, मंत्री स्तरीय चर्चा जैसी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। निष्पादन बजट बनाने की तैयार भी सरकार के वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के निष्पादन बजट की तैयारी भी शरू कर ढी है। इस संबंध में राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव से कहा गया है कि 2024-25 के परिणामी बजट में दिए गए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाना है। अधिकारियों से कहा गया गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेकर १७ अक्टूबर तक वित

नाम परिवर्तन

विभाग को उपलब्ध कराएँ।


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैं हितेश किशन आलवानी उर्फ हितेश कुमार आलवानी उर्फ हितेश आलवानी आत्मज श्री किशन आलवानी निवासी मकान नंबर डी-20 स्ट्रीट नंबर 7 मुथा नगर तेलीबाँधा रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. 492006 तथा मुझे समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हितेश किशन आलवानी उर्फ हितेश कमार आलवानी उर्फ हितेश आलवानी आत्मज श्री किशन आलवानी से जाना पहचाना जाता है यह शपथ करता हँ कि मैंने अपना पराना नाम को त्याग कर नाम हितेश आलवानी आत्मज श्री किशन आलवानी रख लिया हूँ। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नए नाम हितेश आलवानी आत्मज श्री किशन आलवानी से ही जाना पहचाना जावे।

हितेश आलवानी मकान नंबर डी-20, स्ट्रीट नंबर 7, मुथा नगर, तेलीबांधा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) 492006

वित्त ने जारी किया कार्यक्रम अलग-अलग बैठकें होंगी। इस दौरान

आम सूचना

रायपुर (छ.ग.), में स्थित एल.आई.जी. टाईप - I , 99 को श्री शत्रुहन लाल जायसवाल पिता श्री रामसिंग जायसवाल के नाम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा उक्त भवन के मद में पूर्ण राशि जमा कर पंजीयन कार्यालय रायपुर से दिनांक 16.10.2019 को लीजडीड (पट्टा - विलेख) का निष्पादन करा कर आधिपत्य आर्देश प्राप्त कर लिया है। वर्तमान श्री शत्रुहन लाल जायसवाल पिता श्री रामसिंग जायसवाल निवासी:- एम आई जी. ०५. गली नं 03, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नरदहा रायपुर (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को श्रीमती निशा साह पति श्री राम चरण साह निवासी:- मकान नं. 8 202, ई.डब्ल्यू. एस. फ्लैट, अटल विहार कॉलोनी, अकोली रोड़, आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदाय करने हेत इस कार्यालय अतः अटल विहार आवास योजना आरंग



<u>आम सूचन</u>

भवदीय

पुलस कमिश्नर प्रणाली के लिए समिति, ७ आईपीएस शामिल रायपुर। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के लिए ७ आईपीएस अफसरों की कमेटी डीजीपी अरुण देव गौतम ने बनाई है। सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता के

नेतृत्व में अफसरों की बनी कमेटी में आईजी अजय यादव, अमरेश मिश्रा, ध्रुव गुप्ता, अभिषेक मीणा, संतोष सिंह और प्रभात कुमार कमेटी में शामिल हैं। समिति में अतिरिक्त वैधानिक पहलुओं के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर

मुकुला शर्मा संचालक लोक अभियोजन को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में

अनमोल एग्री रेसीडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित धरमपुरा रायपुर पं.क्र. 988 जिल रायपुर के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी श्री सुमीत डडसेना द्वारा दिनांक 08.09.2025 को निर्वोचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार सोसाइटी कार्यालय धरमपुरा रायपुर में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने एवं जांच करने का दिनांक 15.09.2025, नामांकन पत्रों की वापसी एवं चुनाव चिन्ह आबंटन का दिनांक 16.09.2025 को निर्धारित किया गया है। दिनांक . 24.09.2025 को संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान (समय प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक) एवं मतगणना के लिए विशेष आमसभा का आयोजन होटल फ्लोरेन्स वी.आई.पी रोड रायपुर में किया जावेगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों का निर्वाचन दिनांक 28.09.2025 को सोसाइटी कार्यालय धरमपुरा रायपुर में किया जावेगा। (रितेश ताण्डी)

पाधिकत अधिकारी अनमोल एग्री रेसीडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित धरमपुरा रायपुर पं. क्र. 988



आंख एवम कान नाक गला अस्पताल कान से मवाद एवं परदे में छिद्र का दूरबीन पद्धति द्वारा ऑपरेशन

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सामने कर्मा धाम मंदिर गली बोरिया रोड संतोषी नगर रायपुर, फोन 0771-4001080

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130



आम आदमी पार्टी ने पंजाब बाह पीड़ितों के लिए जुटाए 23,163

तिल्दा नेवरा। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी की तिल्दा नेवरा इकाई ने नगरवासियों से 23,163 का फंड इकट्रा किया है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कमल महान ने बताया कि पंजाब में इस समय स्थिति बहत खराब है। गुरदासपुर, अमृतसर. पठानकोट. और फिजालिका समेत 23-24 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। महान के अनुसार, बाढ़ से लगभग 4 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है और नदियों की रेत खेतों तक पहंच गई है। इसके अलावा, हजारों पशु भी बाढ के पानी में बह गए हैं। कमल महान ने यह भी बताया कि एकत्रित की गई राशि को पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा जा रहा है। इस कार्य में भरतिसंह चौहान, राधे बंजारे, डॉ. राजकुमार सोनी, और सुनील श्रीवास्तव जैसे कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।

सुंदरकेरा में कबड़ी व चौसर प्रतियोगिता १३ से

रायपुर। अभनपुर के पास सुंदरकेरा गांव में 13 सितंबर से दो दिवसीय कबड्डी एवं चौसर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कबड़ी में 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह चौसर में तीन श्रेणियों में पुरस्कार रखा गया है। इच्छुक टीमों को पहले दिन ही एंट्री दी जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयोजन समिति के सदस्य लोकेश सिंह ठाकुर से संपर्क किया जा

तरपोंगी टोल प्लाजा में चक्का जाम स्थगित

तरपोंगी। तरपोंगी टोल प्लाजा में 10 सितंबर को होने वाला चक्का जाम स्थानीय लोगों को टोल में छट देने पर सहमति बनने के बाद स्थगित कर दिया गया है। धरसींवा थाने में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। यह निर्णय धरसींवा थाना प्रभारी राजेंद्र दीवान, तरपोंगी टोल प्लाजा के हेड दिनेश शाही और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के बीच हुई सफल बातचीत के बाद लिया गया। बैठक में तरपोंगी क्षेत्र के जनपद सदस्य देवेंद्र वर्मा, सांकरा के जनपद सदस्य शत्रुहन यदु, धरसींवा विधायक प्रतिनिधि विवेक शर्मा और तरपोंगी सरपंच प्रतिनिधि सावन नायक सहित अन्य स्थानीय नेता और ग्रामीण शामिल थे। सभी पक्षों ने स्थानीय लोगों की मांग पर सहमति जताई।

नशे और मोबाडल की गिरफ्त में बच्चे अभिभावकों से जागरूकता की अपील

आरंग। शहर से लेकर गाँव तक स्कूली बच्चे, खासकर नाबालिग, नशें और मोबाइल की गिरफ्त में तेजी से फँसते जा रहे हैं। गांजा, शराब और गटखा जैसी लत के साथ-साथ मोबाइल की अत्यधिक लत बच्चों के भविष्य पर गंभीर असर डाल रही है। नशे और मोबाइल की लत के कारण बच्चे न केवल पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, बल्कि वे अपने माता-पिता की बात भी नहीं मानते और अक्सर वाद-विवाद करने लगते हैं। यह समस्या केवल लडकों तक सीमित नहीं है।

पोस्टमार्टम के बाद शव के लिए मांगे 25 सौ रूपए, परिजनों ने किया विरोध

हरिभूमि न्यूज 🕪 अभनपुर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में मृत्य के बाद पोस्टमार्टम कराने वाले स्वीपर के अमानवीय व्यवहार से परिजनों को दुखद घड़ी में भी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। ग्राम मोहंदी निवासी एक व्यक्ति की सडक दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके शव के पोस्टमार्टम के लिए 2500 रुपये की मांग की गई, और पैसे न मिलने पर शव को घंटों तक रोके रखा गया। गत 4 सितंबर को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पुनीत राम साहू का इलाज के दौरान 9

अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अमानवीय व्यवहार

एफआईआर की मांग और आश्वासन

परिजनों ने ऐसे व्यक्ति पर एफ्रआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में बीएमओ ने बताया कि उन्हें विधायक से भी इस घटना की जानकारी मिली है, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उस स्वीपर के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को यह



प्रशासन पर उठे सवाल

इस घटना की जानकारी बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि स्वीपर एक प्राइवेट व्यक्ति है और उसे पैसे का भगतान करना होगा। परिजनों ने इस रवैये पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की मौजुदगी और बीएमओ को सुचना देने के बाद भी स्वीपर ने घंटों तक शव को रोके रखा। अस्पताल में किसी स्थायी स्वीपर का न होना भी एक बड़ी समस्या है। पोस्टमार्टम के लिए नयापारा से एक स्वीपर को बुलाया जाता है, जिसके कारण आए दिन इस तरह के

लिए उनके शव को अभनपर शासकीय अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद. स्वीपर ने परिजनों से 2500 रुपये की मांग की। परिजनों ने 1000 रुपये दिए, लेकिन स्वीपर ने और अधिक पैसे लिए बिना शव देने से इनकार कर दिया। जब परिजनों ने शव ले जाने की कोशिश की. तो स्वीपर ने धमकाया कि वह पोस्टमार्टम के दौरान की गई सिलाई खोल देगा। उसने परिजनों से कहा कि वे जिससे चाहें बात कर लें, लेकिन जब तक 2500 रुपये नहीं दिए जाएंगे, तब तक शव नहीं दिया जाएगा।

समस्या : छात्रावास प्रभारी निजी व्यवस्था से चला रहे हैं काम, अवैध खनन से बनी गहरी खदान

मुरुम खदान में बना अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, जान-माल का खतरा

हरिभूमि न्यूज ▶≥| मंदिर हसौद

अनसचित जाति कन्या छात्रावास का निर्माण एक प्राने मुरूम खदान में किया गया है, जिससे छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हिसूमि लगातिर छात्रावास राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने के बावजूद, सडक से लगभग 10 फीट नीचे एक गड्डे में बनाया गया है। गांधीग्राम नकटा में 10-15 साल से मुरूम का अवैध खनन चल रहा था, जिससे यहां एक गहरी खदान बन गई है। आरोप है कि विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण मुरूम माफिया लगातार अवैध खनन करते रहे। अब

आदिम जाति तथा अनुसचित



जाति विकास विभाग ने इसी खदान के अंदर सरकारी प्रोजेक्ट, यानी छात्रावास, का निर्माण करवा दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि छात्रावास से मख्य सडक तक आने-जाने के लिए कोई पक्की सडक नहीं है। बच्चों को एक कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। वर्तमान में इस शासाग्री मॅट्रिक अनु, जाति बालक द्यात्राचास

छात्रावास में 6वीं से 9वीं कक्षा के लगभग 20 छात्र रह रहे हैं। छात्रावास प्रभारी लखनलाल बघेल ने बताया कि वे अपनी निजी व्यवस्था से बच्चों को 3 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल तक लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आसपास की खुली खदानों के कारण अक्सर

जिससे बच्चों की सुरक्षा को

राजनीतिक आरोप और मांग

नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जमीन न ढिए जाने पर आढिम जाति विभाग ने नकटा पंचायत से संपर्क किया था और विभाग ने ही जमीन का चयन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में फंड जारी न होने से पालिका में विकास कार्य रुक गए हैं, जिसके कारण छात्रावास के लिए रास्ता नहीं बन पाया। आम आदमी पार्टी (आप) एससी विंग के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जांगडे ने इस निर्माण को 'शासन की राशि का दरुपयोग' और 'एससी समुदाय के प्रति ओछी मानसिकतां' का जीवंत उदाहरण बताया। उन्होंने जिम्मेढार अधिकारियों पर कार्रवाई करने, छात्रावास के लिए पक्की सडक बनाने और खदान वाली जगह पर वुक्षारोपण करने की मांग की। इस संबंध में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के अपर संचालक से संपर्क करने की कोशिश की गई. लेकिन उनका फोन

सकरी से धनसुली-नरदहा का काम तीन साल से अधूरा, ग्रामीण परेशान



हरिभमि न्यज ▶≥। मंदिर हसौद

विधानसभा के पास स्थित ग्राम पंचायत सकरी से धनसली-नरदहा को जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण और चौड़ीकरण का काम पिछले तीन साल से अधूरा पड़ा हुआ है। इस अधूरे और खराब सडक पर भारी वाहनों के आवागमन से बड़े-बड़े गड़े हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में, एक हाईवा अनियंत्रित होकर सकरी बस्ती में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी चौक को क्षतिग्रस्त कर गया. हालांकि जनहानि होने से बच गई। सडक की खराब हालत के कारण राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। बारिश में सडक पर कीचड़ और धूल उड़ने से लोगों का बुरा हाल है। इसका सीधा असर धनसुली बस्ती, हाउसिंग बोर्ड और संस्कार सिटी के निवासियों पर पड रहा है।



इस समस्या को लेकर, रायपुर कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष नारायण कुर्रे, सरपंच सोनल प्रशांत कुर्रे, जनपद सदस्य बरखा लोकेश साह और पप्प बंजारे ने शासन-पशासन से जल्द से जल्द सड़क का काम पुरा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रोड का काम जल्द शुरू नहीं हुआ, तो ग्रामीण सडक जाम कर उग्र प्रदर्शन करेंगे. जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। सड़क के बारे में एसडीओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि बारिश के कारण डामरीकरण का काम रुका हुआ है। बारिश थमने के बाद काम फिर से

शुरू किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा पर वाद-विवाद स्पर्धा, छात्रों ने दिया जागरूकता का संदेश

हरिभूमि न्यूज 🕪 सिलयारी

प्रदेश में बढ़ती सड़क दर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से, स्कूल शिक्षा और गृह विभाग के मार्गदर्शन में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने /"सडक सुरक्षा जीवन रक्षा/" विषय पर एक सभागीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह आयोजन स्कुली छात्रों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया गया। यह संभागीय कार्यक्रम रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ के. विश्वरंजन, उपसंचालक शिक्षा पृष्पा किस्पोट्टा और जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में गायत्री श्रीवास्तव, नीलिमा शर्मा और अर्पित तिवारी शामिल थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा को निखारने, उन्हें वाकपट बनाने और

आगे बढने के लिए एक मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद करने की अपनी भूमिका और कर्तव्य पर जोर दिया। इसका मकसद ग्रामीण समदाय और अभिभावकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। प्रथम स्थान बी.पी. पजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, राजातालाब, रायपुर। द्वितीय स्थान पीएम श्री आर.डी. तिवारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, आमापारा, रायपुर। तृतीय स्थान शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, अभनपुर। इसके अलावा, स्वामी आत्मानंद स्कूल बलौदाबाजार, पीएम श्री सेजेस बसना, सेजेस गोकुलपुर धमतरी, और आशा बाई गोलछा स्कूल महासमुंद सहित कई अन्य विद्यालयों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

श्री बजरंग दास स्कूल में सशिमं में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व छात्रों का सम्मेलन

अभनपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर, श्री बजरंग दास उच्चतर

 विधायक ने खोई हुई प्रतिष्टा लौटाने का किया आह्वान

सांप और बिच्छ निकलते रहते हैं.

माध्यमिक विद्यालय अभनपुर में पूर्व छात्री का एक भावुक स्नीहल सम्मेलन (एलुमनी मीट) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक पूर्व छात्र-छात्राएं शामिल हुए, जिन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए गुरुजनों और साथियों से मुलाकात की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंद्रकुमार साह ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब मिलकर 70 साल पराने इस विद्यालय की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएंगे। उन्होंने पूर्व छात्रों की उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए विद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा को फिर से स्थापित करने का आह्वान किया। पूर्व छात्रों ने भी स्कूल के गिरते शैक्षणिक और खेल स्तर पर चिंता व्यक्त की और इसे सधारने के लिए



पूर्व छात्रों ने दिया

आर्थिक सहयोग सम्मेलन में पूर्व छात्रों के बीच खेलकूद का आयोजन भी किया गया. जिसमें सभी ने उत्साह से भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को संस्था की ओर से जलपान कराया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। इस दौरान कई पूर्व छात्रों ने विद्यालय को आर्थिक सहयोग भी दिया। पूर्व छात्रा रीना मिश्रा ने २०.००० भरत ढेवांगन ने 5,000 और लता प्रसाद ने 2,000 की राशि दान की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारती शिंदे राजा राय, हेमंत तारक और प्राचार्य इला सेंगर का विशेष योगढान रहा।

हरिभूमि न्यूज 🕪 तिल्दा नेवरा

सरस्वती शिशु मंदिर तिल्दा में विभाग स्तरीय खो-खो और कबड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व, आपदा और उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मंत्री टंक राम वर्मा ने शिशु वाटिका का लोकार्पण और प्रार्थना शेड का भूमि पूजन किया।

इसके बाद भारत माता और सरस्वती माता को पूजा-अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया गया। बच्चों ने अतिथियों का स्वागत भाव नृत्य प्रस्तत कर किया। अपने संबोधन में मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि वह सरस्वती शिशु मंदिर के कार्यक्रमों में जरूर शामिल होते हैं। उन्होंने मंच से 10वीं और 12वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। 12वीं के टॉपर को 35.000 और दूसरे स्थान पर आने वाले को 20,000 दिए जाएंगे। इसी तरह, 10वीं के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 30,000 और द्वितीय स्थान पाने वाले को 15,000 मिलेंगे।

मंत्री टंक राम ने की छात्रों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर चर्चा

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरस्वती शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष रामभरोसा सोनी ने पंच परिवर्तन, सामाजिक समरसता, स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात की। उन्होंने बताया कि ये बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय खिलाड़ी विनीत वर्मा ने खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई। अंत में, प्राचार्य ने सभी अतिथियों । आभार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में रायपुर और बलौदाबाजार जिले से कुल 289 छात्र-छात्राएं और 20 शिक्षक-आचार्य शामिल हुए हैं। फाइनल मुकाबले बुधवार, 10 सितंबर को खेले जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता रॉम पंजवानी राजू शर्मा और डॉ. खुमान वर्मा सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।

पेज ११ के शेष...

छात्राओं के सपनों को मिली नई उड़ान

सिलयारी स्कूल में 133 छात्राओं को सरस्वती साइकिल का वितरण

हरिभूमि न्यूज 🕪 धरसींवा

धरसींवा विकासखंड स्थित डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिलयारी में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सरोज चंद्रवंशी की मख्यातिथि व ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रुखमनी साहू की गरिमामय उपस्थिति मे एक अत्यंत प्रेरणादायक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की 133 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। यह योजना राज्य सरकार की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो छात्राओं को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कार्यक्रम की मुख्यातिथि जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशी ने सरकार के इस दूरदर्शी कदम सपनों को मिली नई गति



साइकिलें पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। कक्षा 9वीं की छात्रा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, /"मेरा घर स्कूल से काफी दूर है और मुझे रोज पैदल चलकर आना पड़ता था। अब साइकिल मिलने से मेरा समय बचेंगा और मैं अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दे पाऊंगी। इसी तरह एक अन्य छात्रा ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, यह योजना हम जैसी छात्राओं के लिए वरदान है। साइकिल से अब स्कूल आना-जाना आसान होगा और मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत कर सकूंगी।

की जमकर सराहना की। श्रीमती चंद्रवंशी ने जोर देकर कहा कि साइकिल केवल एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। अक्सर, स्कूल की दुरी और परिवहन रखने का अवसर मिलता है।

की कमी के कारण कई छात्राएं अपनी पढाई बीच में छोडने को मजबूर हो जाती हैं। सरस्वती साइकिल योजना इस समस्या का सीधा और प्रभावी समाधान प्रदान करती है, जिससे छात्राओं को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी

सरकार की पहल, एक उज्ज्वल भविष्य की नींव : रूखमणी

ग्राम पंचायत कुरूद-िसलयारी की सरपंच रूखमणी साहु ने कहा कि यह योजना दर्शाती है कि छत्तीसगढ सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है और मानती है कि बेटियों की शिक्षा ही राज्य के विकास की कुंजी है। निःशुल्क साइकिलें प्रदान करके, सरकार न केवल आर्थिक बोझ कम कर रही है बल्कि सामाजिक असमानता को भी दूर करने का प्रयास कर रही है। इस योजना का उद्देश्य छात्राओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना जगाना है. ताकि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकें। यह पहल निश्चित रूप से राज्य में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र मे एक क्रांति लाएगी। इस सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि सशासन और जन-कल्याण को समर्पित एक सरकार किस प्रकार छोटे-छोटे कढ़मों से बड़े बढ़लाव ला सकती है। नि:शल्क सरस्वती साइकिल योजना के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह संदेश दिया है कि हर बेटी का पढ़ना और आगे बढ़ना उसका अधिकार है और सरकार इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशों, जनपद सदस्य विजय साहू, सरपंच ग्राम पंचायत कुरूद सिलयारी रुखमणी साहू, पूर्व मण्डल अध्यक्ष डाक्टर के के वर्मा, शाला प्राचार्य जॉली जोन्स, शाला विकास एवं प्रबंध समिति सिलयारी अध्यक्ष अशोक साहू, श्री राम प्रसाद टंडन, घनश्याम चक्रधारी उत्तरा

विसर्जन झांकी में...

गुंडे-बदमाश, असमाजिक एवं शरारती तत्व के लोग भी घुम रहे थे, जो मारपीट, चोरी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते थे। ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस कर्मी जगह-जगह तैनात किए गए थे, जो संदेह होने पर लोगों को पकड़कर तलाशी भी ले रहे थे। इस तलाशी के दौरान ही पुलिस ने डेढ़ दर्जन से अधिक युवकों के कब्जे से चाकू एवं कैची जब्त किया है। इन सभी यवकों के विरुद्ध अलग-अलग थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया

१०० से ज्यादा असामाजिक...

के बाद पुलिस ने विसर्जन झांकी के दौरान अन्य कड़ा पहने असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके हाथ से कड़े उतरवाकर जब्ती बनाया है। जब्त किए गए सैकड़ों कड़ों का कुल वजन 20 किलोग्राम से अधिक बताया है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष...

एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। इस फर्म के नाम पर उसने जीई रोड स्थित फेडरल बैंक में खाता खोल रखा है। इस खाता से बिना उसकी अनुमति एवं जानकारी के 58 लाख 5 हजार रुपए दूसरे बैंक के खातों में ट्रांसफर हो गए हैं। यह राशि तीन बार में अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। इसमें पहली राशि 29 लाख रुपए, दूसरी राशि 18 लाख 5 हजार रुपए तथा तीसरी 11 लाख रुपए हुई है। ये तीनों राशि एक ही दिन 8 सितंबर को ट्रांसफर की गई है।

एयरपोर्ट की तर्ज पर...

उम्मीद है। रेलवे ने साफ किया है कि इन आउटलेटस में खाने-पीने का सामान नहीं बेचा जाएगा। सभी दुकानें बोली प्रक्रिया के जरिए तय की जाएंगी। शुरुआत में दुकानों का करार 5 साल के लिए होगा, जिसे अच्छे प्रदर्शन पर 9 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें केवल प्रीमियम दुकानों को मौका मिलेगा।

एडिडास, रीबॉक जैसी...

हथकरघा, जनजातीय कला हर्बल उत्पाद और शिल्पकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन दुकानों से यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला एवं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।

स्टेशन में दुकान...

बढ़ेंगी और राजस्व भी बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन में सभी वर्गों के यात्री सफर करते हैं। लोकल व बड़े ब्रांड की दुकानों से राजस्व लाभ भी

नहीं गिरा पानी तो...

अभी एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम बंगाल की खाडी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाडी उडीसा तट और उत्तर आंध्रप्रदेश के तट से दूर स्थित है। वहीं मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, कच्छ, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा और उसके बाद पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाडी तक मौजुद है।



पितृपक्ष में नदी-तालाबों की साफ-सफाई करने की मांग

रायपुर। महादेवघाट, एनीकट घाट और अन्य जलस्थलों की साफ-सफाई करने की मांग छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के पूर्व सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने नगर निगम से की है। श्री ठाकुर ने बताया कि पितपक्ष अमावस्या 7 सितंबर से आरंभ होकर 21 सितंबर तक जारी रहेगी। श्रद्धाल अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल तर्पण और तर्पण विधि का पालन करते हैं। इस अवसर पर सभी धर्मावलंबी तालाबों और नदियों में जाकर जल अंजलि. तिलांजलि आदि देने का कार्य करते हैं। इस वर्ष महादेवघाट, नदी घाट और अन्य धार्मिक स्थलों की सफाई की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। जबिक हजारों श्रद्धालु अपने पितरों को जल तर्पण करने नदी व तालाब आते हैं, वहीं गंदगी और अव्यवस्था का आलम है। यह स्थिति नगर निगम की जिम्मेदारी और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी को दर्शाती है।

चंगोराभाटा में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद



उत्कर्ष गणेशत्सव समिति चंगोराभाठा द्वारा मंगलवार को विशाल महाभण्डारे का आयोजन किया गया। जहां हजारों लोगों ने भगवान श्रीगणेश के जयघोष के साथ प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही भक्तों की लंबी कतारें प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगी हुई थीं। यह कार्यक्रम देव देवांगन सत्या ऑटो पार्ट्स चंगोराभाठा वार्ड 67 की पार्षद ममता सोनू तिवारी, प्रशांत पाण्डेय, सूर्यकांत पटेल, उमाशंकर देवांगन, खिलेश देवांगन, भूदेव देवांगन, राहुल वर्मा, मोहित चौधरी, विशाल चौधरी, साधक वर्मा, हर्ष साह, आलोक वर्मा, गिरीश वर्मा, हिमांश ठाकर, दीपांश ठाकर, आशुतोष पटले, भोला, रविंद्र एवं समस्त समितियों के सदस्यों के सहयोग से किया गया।

विघ्नहर्ता ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता में दिखाया हुनर

रायपुर। छग झाडे गडरिया महिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की ओर से विघ्नहर्ता ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जहां समाज के अध्यक्ष गोविंद धनगर ने जानकारी देते हए बताया कि इस प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया तथा गणेशजी के विभिन्न रूपों को बच्चों ने कैनवास पर खूबसूरती से उतारा। प्रतियोगिता में श्रुतिका चिव्हाने देवास, वंशिका निव्हल, सानवी धनकर, प्रियांश धनगर, भावना धनकर, शिवान्या पाटिल, रूसिका धनगर, भव्या धनगर को चयनित किया गया। साथ ही भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों में जयकुमार धनगर, धावित धनकर, क्रियांश धनगर, शिवांशी धनकर, पार्थ धनगर, सोवित धनगर, शिवान्या पाटिल, शिवांस पाटिल, यश्वी धनकर, देशन धनकर, भव्या को साज-सज्जा में भाग लेने के लिए चयनित किया गया। वहीं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष उमाबाई धनकर, संयोजक यशोदा बाई धनकर ने समाज के बच्चों को उनकी प्रतिभा के लिए प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं दीं।

निधन

हनुमंत बाघ रायपुर। कटोरा तालाब निवासी



हनुमंत बाघ (69) का 9 सितंबर को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 10

सुबह 11 बजे मारवाडी श्मशानघाट में किया जाएगा।

रविवि का भूतिया रिजल्ट... वेबसाइट खोलते ही काले पन्ने, नतीजों का अता-पता नहीं

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

ए ग्रेड प्राप्त पं.रविशंकर शक्ल विवि में जो ना हो जाए वो कम है। मंगलवार को रविवि ने कुछ विषयों के पुनर्गणना परिणाम घोषित किए। किन विषयों के

परिणाम रविवि ने घोषित किन विषयों के किए हैं, यह ही स्पष्ट नहीं हो पुनगर्णना परिणाम, यह ही स्पष्ट नहीं, सिर पकड़कर बैते छात्र


सका है। दरअसल, विवि ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट के लिंक पर नतीजों की जो पीडीएफ फाइल अपलोड

की है, उसमें काले पन्नों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मंगलवार को अपलोड की गई 49 पेज की

49 पेज की पीडीएफ फाइल में एक-दो पेज में ही नजर आ रहे कुछ अंश

पूर्व जांच नहीं

कई छात्रों ने इसे हल्के-फुल्के अंदाज में आपस में साझा भी किया। हालांकि इसके बाद से रविवि की प्रणाली पर गंभीर सवाल खडे हो गए हैं। वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से पर्व इन पीडीएफ फाइलों की जांच नहीं किए जाने के बाद हीं इस तरह की त्रुटि संभावित है। वर्ष की शुरुआत से ही रविवि की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते रहें हैं। प्रश्नपत्र बांटने में विलंब से लेकर परीक्षा स्थिगत किए जाने तक की घटनाएं थोक में हुई हैं। इसे लेकर भी विवि की किरकिरी हुई थी। ए ग्रेड मिलने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं है और ना ही मानवीय त्रृटियों को नियंत्रित



चुनौती मुल्यांकन को लेकर भी रोष

मुल्यांकन में विलंब के अतिरिक्त चुनौती मुल्यांकन को लेकर भी छात्रों में रोष है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वीन प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए चुनौती मल्यांकन का प्रावधान रखा गया है। पनर्गणना अथवाँ पुनर्मूल्यांकन परिणाम से असंतुष्ट रहने पर छात्र इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. लेकिन इसकी फीस 2500 रुपए रखी गई है। छात्र की आपनि यही पाठ जाते पर भी राशि तापय तहीं होगी। इतनी अधिक राशि को लेकर छात्रों में रोष है।

अधरे शब्द समझ में आ रहे हैं। पनर्गणना के लिए आवेदन करने के बाद नतीजों का इंतजार कर रहे विद्यार्थी लगभग प्रत्येक दिवस रविवि की आधिकारिक वेबसाइट खंगालते हैं।

मंगलवार को जब रिजल्ट वाले सेक्शन में जाकर छात्रों ने अपने परिणामों के संदर्भ में जानकारी चाही तो जो पीडीएफ फाइल उनके सम्मख खला. उसे देखते ही वे खद ही चकरा गए। किसी भतिया फिल्म में टीवी के चलचित्र गायब होने के बाद जो दृश्य उत्पन्न होता है, वह ही दृश्य रविवि के रिजल्ट लिंक पर भी नजर आ रहा है। वेबसाइट में जाकर नतीजे संबंधित लिंक खोले जाने पर भूतिया फिल्म सरीखे अहसास हो रहा है।

मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एसएसपी को सौंपा ज्ञापन

12 दिन पहले संदिग्ध हालत में मिली तमन्ना की लाश, शरीर पर चोटों के निशान, हत्या की आशंका

राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेबर सिटी में 12 दिनों पहले एक महिला की संदिग्ध हालत में मिली लाश के मामले में नया मोड सामने आया है। मतका के परिजनों से पता

 परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बेटी को उसका पति, सास दहेज को लेकर प्रताडित किया करते थे

चला कि मृतका के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं, जबिक उसके ससराल पक्ष के लोगों ने बताया था कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को

उसका पति, सास दहेज को लेकर प्रताड़ित किया करते थे, जिससे वह दुखी रहती थी। परिजनों ने इस मामले में एसएसपी रायपुर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

नमशेबपुर ले गए, जहां मुस्लिम रीति के साथ सुपुर्देखाक किया।



जांच की जाएगी

मृतका के परिजनों ने दहेज के नाम पर संसुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताई है। पीएम रिपोर्ट में फांसी से मौत होना पाया है, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इसकी जानकारी सामने आई है। इसकी जांच कराई जाएगी।

- दौलत राम पोर्ते. एएसपी

मृतका के परिजनों को अभी तक नहीं मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट

मृतका के पिता अख्तर ने बताया कि उसकी बेटी का पोस्टमार्टम की शॉट रिपोर्ट अभी तक उसे पुलिस से प्राप्त नहीं हुई है, वहीं तमन्ना के शव का जो विडियो बना है. उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तमन्ना के चेहरे, हाथ-पैर एवं बदन पर जगह-जगह चोट के निशान हैं। इन चोटों को देखकर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मृत्यु से पहले तमन्ना के साथ मारपीट की गई है। मृतका के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि थाना पुलिस इस मामले को दबाने का

प्रयास कर रही है।

अंतिम नोटिस की अनदेखी मोटर वर्कशाप परिसर सील



हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

मंगलवार को निगम आयुक्त विश्वदीप के आदेश पर जोन 5 सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव, मनीष भोई के नेतृत्व में टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित मोटर वर्कशाप परिसर को संबंधित

कर भुगतान नहीं किए जाने पर सील कर दिया। इसके लिए अमरपाल सिंह, पिता कदरत सिंह को जोन 5 द्वारा डिमांड बिल का अंतिम नोटिस जारी किये जाने के बाद भी बकाया राशि भुगतान नहीं करने पर परिसर को

संचालक द्वारा बकाया

सील करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा शहर के बड़े बकायादारों पर बकाया संपत्ति कर वसुली के लिए इन दिनों जोनवार अभियान चलाया जा रहा है। अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल और उपायुक्त राजस्व डॉक्टर अंजलि

शर्मा के निर्देश पर जोन 5 की राजस्व टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित मोटर वर्कशाप परिसर को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर सील कर दिया। सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव ने बताया कि अमर पाल सिंह पिता कुदरत सिंह का

जोन 5 के राजस्व वर्ष 2016 -17 से वर्ष विभाग की टीम ने 2025 -26 तक बकाया किया सीलबंद राशि भुगतान के लिए जोन के माध्यम से

> डिमांड बिल लगातार भेजा गया। इसके बाद अंतिम नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया राशि भगतान नहीं करने पर परिसर को सील किया गया। इस अभियान में सहायक राजस्व अधिकारी प्रमोद जाधव, राजस्व निरीक्षक राजेश मुले, मनीष भोई , सहायक राजस्व निरीक्षक अमर सागर, रत्नदीप करवाड़े, मयंक यादव. विपिन सोनी, महावीर घनश्याम, देवेंद्र नेताम की उपस्थिति रही।

स्वास्थ्य केंद्र में अमानक दवा ड्रग इंस्पेक्टर ने बदला सैंपल

ससुराल में 28 अगस्त को मिली थी तमन्ना की लाश

पुरानी बस्ती पुलिस के अनुसार तमन्ना परवीन की लाश 28 अगस्त को उसके ढेबर सिटी स्थित संसुराल घर में मिली

लगाकर खुद्रकुशी कर ली है। इस सूचना पर पुलिस ने फिरोज के घर पहुंचकर पंचनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जांच करते हुए इसे आत्महत्या ही मानकर मर्ग

थीं। उसकी मौत की सूचना उसके पति फिरोज अंसारी ने पुलिस को दी थी। पुलिस को बताया गया थाँ कि तमन्ना ने फांसी

कायम किया है। इधर इस घटना की सूचना पर मृतका के पिता एसके अख्तर जो जमशेंद्रपुर के कदमा थाना क्षेत्र में रहते

लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर कोई शिंकायंत दर्ज नहीं की, जिसके बाद वे बेटी के शव को अपने प्रस्तैनी घर

हैं, रायपुर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उसकी मृत बेटी का पोस्टमार्टम एम्स हास्पिटल में किया जा रहा है। इस दौरान

उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट बर्ज कर जांच <u>करने की मांग की थी.</u>

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में आयरन की गोली खराब होने की शिकायत पर जांच के लिए ाहुचा ड्रग इस्पेक्टर खुद जाच के दायर में आ गया है। उस पर सैंपल बदलने और हेल्थ सेंटर के स्टाफ को धमकाने

शिकायत पर का आरोप है। औषधि जांच शुरू निरीक्षक के खिलाफ

स्वास्थ्य केंद्र का मामला. शिकायत के बाद मचा हड़कंप

बोरियाकला

उससे जवाब मांगा है। वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में दवाओं के अमानक मिलने का दौर चल रहा है। ऐसे में खाद्य एवं औषधि

हुई विभागीय शिकायत

के बाद अफसरों ने

प्रशासन की टीम को दवाओं को लेकर संवेदनशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आमानाका इलाके में रहने वाले गजानन नायक द्वारा औषधि निरीक्षक ओपी यादव के खिलाफ की गई शिकायत के मामले को संवेदनशील बनाती है।

अफसरों को की गई शिकायत में नायक ने बताया है कि बोरियाकला में घटिया आयरन टेबलेट का मामला सामने आया था। इस बीच दवाओं की अन्य तरह की शिकायत लेकर



एफडीए के औषधि निरीक्षक ओपी यादव स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने वहां से सैंपल उठाया, मगर दवा कंपनियों की साठगांठ के बाद उसे बदल दिया। यादव पर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकीय स्टाफ को भी धमकाने का आरोप है। शिकायतकर्ता द्वारा सहायक नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की गई शिकायत में संबंधित दवा कंपनी से घटिया स्तर की दवा की ओके रिपोर्ट देने की तैयारी की जा रही है।



मांगा गया स्पष्टीकरण

ड्रग इंस्पेक्टर को सैंपल लेने भेजा गया था, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य केंद्र में क्या हुआ. इस बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

> - **संजय नेताम,** जिला सहायक नियंत्रक . खाद्य एवं औषधि प्रशासन

गोमती नगर से महबूब नगर के बीच 6 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा व अतिरिक्त भीड को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोमती नगर और महबुब नगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 05314/05313 गोमती नगर-महबूब नगर-गोमती नगर फेस्टिवल स्पेशल कुल 06 फेरे के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन संख्या 05314 प्रत्येक रविवार को 28 सितम्बर से 02 नवम्बर तक चलेगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 05313 महबूबनगर से प्रत्येक सोमवार को 29 सितम्बर से 03 नवम्बर तक चलेगी। इस विशेष ट्रेन से त्योहार के समय यात्रियों को अधिक आरक्षित बर्थ की सविधा उपलब्ध होगी और यात्रा सगम हो सकेगी।

चिन्ना गंजम स्टेशन पर तिरुपति एक्सप्रेस का टहराव

रेल यात्रियों की सुविधा व उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाडा रेल मंडल अंतर्गत चिन्ना गंजम स्टेशन पर ट्रेन संख्या 17481

बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव जारी रहेगा। यह ठहराव यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी 5 फरवरी 2026 से लागू होगा।

कम डाक्टर वाले छोटे प्राइवेट अस्पतालों से लाखों का क्लेम, इनपुट के आधार पर जांच टीम सक्रिय

एमबीबीएस डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या नहीं होने के बाद भी बड़ी संख्या में आयष्मान हितग्राहियों का इलाज कर लाखों का क्लेम करने के इनपट के आधार स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए

सिक्रय हुई है। आबेडकर अस्पताल से आने आयुष्मान स्वास्थ्य वाले क्लेम से तुलनात्मक अध्ययन करने के सहायता योजना, बाद निजी अस्पतालों में जाकर किए गए इलाज निजी हास्पिटलों में के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

पहंच रही आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना का इंवेस्टीगेशन टीम बजट पहले 1200 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर

1500 करोड़ किया गया है, जिसे भी कम माना जा रहा है, क्योंकि निजी अस्पतालों द्वारा बडी संख्या में मरीजों के इलाज के दावे किए जाते हैं। सरकारी की तुलना में निजी अस्पताल के क्लेम वाले बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए इसे जांच का हिस्सा बनाया गया है। इसकी वास्तविकता जानने स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इसके लिए विभिन्न निजी अस्पतालों में जाकर किए गए क्लेम से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ इस बात की पृष्टि भी की जा रही है कि उनके द्वारा योजना में इंपैनल्ड होने के दौरान तय किए गए नियम का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। सूत्रों के अनुसार जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है कि ज्यादातर निजी अस्पतालों द्वारा एमबीबीएस डाक्टर. नर्सिंग स्टाफ रखने में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उनके द्वारा एमबीबीएस के बजाए बीएएमएस डाक्टरों द्वारा काम चलाया जा रहा है। वहीं नर्सिंग स्टाफ के लिए भी निर्धारित योग्यता का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों की जांच किसी तरह की

इस तरह की शिकायत ज्यादा

नियम के मताबिक योजना में शामिल अस्पतालों में 20 बेड के हास्पिटल में एक टाइम में एक एमबीबीएस डॉक्टर यानी दिनभर में तीन तथा 6 बेड में जनरल वार्ड में एक नर्स यानी दिनभर के लिए तीन नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर अस्पतालों द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता। डाक्टरों के रूप में आरएमए अथवा बीएएमएस की इयुटी लगाई जाती है जो नियम के विपरीत है।



गडबडी मिलने पर कार्रवार्ड

अस्पतालों में नियमित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है। इस दौरान कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान योजना के साथ नर्सिंग होम एक्ट के नियम पालन अस्पताल में कराने पर जोर टिया जा रहा है।

- **डॉ. मिथिलेश चौधरी,** सीएमएचओ

मितानिनों की एक माह से चल रही हड़ताल स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद स्थगित

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

वेतन में पचास प्रतिशत की बढोतरी सहित तीन सत्रीय मांग पर आंदोलनरत मितानिनों की हडताल स्वास्थ्य

था आंदोलन

सचिव अमित कटारिया से मलाकात के बाद स्थगित हो गई। वेतन वृद्धि सहित बैंठक के दौरान मितानिनों के तीन सूत्रीय मांग प्रतिनिधिमंडल को बताया गया है, उनके वेतन में बढोतरी का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।

मितानिनों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य शासकीय कार्यक्रम काफी प्रभावित हो रहे थे। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ के नेतृत्व में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव अमित कटरिया से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर मांगों पर चर्चा की। इस दौरान आरओपी में प्रशिक्षकों के लिए 16 रुपये प्रतिदिन, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर के लिए 23 रुपये प्रतिदिन तथा ब्लॉक समन्वयक के लिए 1875 रुपये निर्धारित किए जाने पर भी



सकारात्मक चर्चा हुई। जिसके सामान्य सभा के अध्यक्ष सचिव स्वास्थ्य एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आयुक्त स्वास्थ्य हैं, जिसके माध्यम से मितानिन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। प्रदेशभर में 80 हजार से ज्यादा मितानिन, प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेट, विकासखंड ब्लॉक समन्वयक ७ अगस्त से अपना काम बंद कर धरने पर बैठे थे। उनके आंदोलन की वजह से निचले स्तर पर संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावित हो रहे थे। विभागीय स्तर पर उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा था, जिस पर सफलता मिल गई है। स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक के दौरान आयुक्त सह मिशन संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला एवं मितानिन कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अजय शंकर कन्नौजे मौजूद रहे।

विसर्जन झांकी में...

गुंडे-बदमाश, असमाजिक एवं शरारती तत्व के लोग भी घूम रहे थे, जो मारपीट, चोरी लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते थे।

ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस कर्मी जगह-जगह तैनात किए गए थे, जो संदेह होने पर लोगों को पकडकर तलाशी भी ले रहे थे। इस तलाशी के दौरान ही पुलिस ने डेढ़ दर्जन से अधिक युवकों के कब्जे से चाकू एवं कैची जब्त किया है।

इन सभी युवकों के विरुद्ध अलग-अलग थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज

१०० से ज्यादा असामाजिक...

के बाद पुलिस ने विसर्जन झांकी के दौरान अन्य कड़ा पहने असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके हाथ से कड़े उतरवाकर जब्ती बनाया है। जब्त किए गए सैकड़ों कड़ों का कुल वजन 20 किलोग्राम से अधिक बताया है।

पेज ११ के शेष

विशेष शिकायत पर ना होकर नियमित प्रक्रिया के तहत हो रही है।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के...

एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म है। इस फर्म के नाम पर उसने जीई रोड स्थित फेडरल बैंक में खाता खोल रखा है। इस खाता से बिना उसकी अनुमति एवं जानकारी के 58 लाख 5 हजार रुपए दूसरे बैंक के खातों में ट्रांसफर हो गए हैं। यह राशि तीन बार में अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। इसमें पहली राशि 29 लाख रुपए, दूसरी राशि 18 लाख 5 हजार रुपए तथा तीसरी 11 लाख रुपए हुई है। ये तीनों राशि एक ही दिन 8 सितंबर को ट्रांसफर की गई है।

एयरपोर्ट की तर्ज पर...

उम्मीद है। रेलवे ने साफ किया है कि इन आउटलेट्स में खाने-पीने का सामान नहीं बेचा जाएगा। सभी दुकानें बोली प्रक्रिया के जरिए तय की जाएंगी। शुरुआत में दुकानों का करार 5 साल के लिए होगा, जिसे अच्छे प्रदर्शन पर 9 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें केवल प्रीमियम दुकानों को मौका मिलेगा।

एडिडास, रीबॉक जैसी...

हथकरघा, जनजातीय कला, हर्बल उत्पाद और शिल्पकला को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन दुकानों से यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे और छत्तीसगढ की पारंपरिक कला एवं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलेगी।

स्टेशन में दुकान...

बढ़ेंगी और राजस्व भी बढ़ेगा। रेलवे स्टेशन में सभी वर्गों के यात्री सफर करते हैं। लोकल व बड़े ब्रांड की दुकानों से राजस्व लाभ भी होगा।

नहीं गिरा पानी तो...

अभी एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम बंगाल की खाडी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाडी उडीसा तट और उत्तर आंध्रप्रदेश के तट से दूर स्थित है। वहीं मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, कच्छ, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा और उसके बाद पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक मौजूद है।



भूजल स्तर बचाने, डबरी निर्माण के लिए किसानों को करें पोत्साहित

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को जल संसाधन एवं कृषि विभाग के सचिव की बैठक लेकर राज्य में घटते भूजल स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने का सझाव दिया। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि वर्षा का जल संचयन ही भविष्य की कृषि और जलसंकट का समाधान है। उन्होंने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें अपनी खाली पड़ी जमीनों पर डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने से भजल स्तर बढेगा। राज्यपाल ने जल संसाधन और कृषि विभाग को मिलकर ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो और कृषि विभाग की सचिव शहला निगार उपस्थित रहे।

हिना बनीं महिला उन्नति संस्था की प्रदेश अध्यक्ष

रायपुर। महिला उन्नति संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राहुल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन में यवा समाजसेवी हिना फिरोज को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

अनुरेखक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत अनुरेख के रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए 9 सितंबर से लेकर एक अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा 26 अक्टूबर को संभावित है। केवल रायपुर और बिलासपुर में इसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे।

कॉलेजों को आज मध्य रात्रि तक देनी होगी जानकारी, अन्यथा माना जाएगा प्रवेश शून्य

पं.रविशंकर शुक्ल विवि सहित अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालय जिन्होंने छात्रों को ऑफलाइन दाखिले दिए हैं, उन्हें 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक पोर्टल पर सभी जानकारी अपडेट करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने पर छात्रों का प्रवेश शुन्य माना जाएगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में 14 अगस्त तक दाखिले की प्रक्रिया चली थी। 12वीं कक्षा के पुरक परिणाम इसके बाद घोषित होने तथा महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की स्थिति को देखते हुए उच्च

विश्वविद्यालयों के आग्रह पर 5 सितंबर तक बढ़ाई गई थी प्रवेश तिथि

विशेष लाभ नहीं

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने का कोई विशेष लाभ महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को नहीं हुआ। रविवि द्वारा उच्च शिक्षा को भेजे गए खत के अनुसार, रविवि अध्ययनशाला और संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों की स्नातक की 47 हजार 252 सीटें हैं। तिथि बढ़ाए जाने से पूर्व तक इनमें से 28 हजार 951 अर्थात 61.2% सीटों पर ही प्रवेश हुए हैं। इस तरह से 38.8% सीटें रिक्त हैं। 0 स्नातकोत्तर : रविविं के अधीन आने वाले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 15 हजार ७४९ है। इनमें से ५ हजार ५९८ में प्रवेश हुए हैं। इस तरह से 54.59% सीटें भरी हैं और 45.41% सीट खाली रह गई हैं। सीट अपडेट के अनुसार, सीमित सीटों पर ही बढ़ी हुई तिथियों में प्रवेश हो सके हैं। बड़ी संख्या में सीट अब भी रिक्त हैं।



री-रजिस्टेशन १५ तक

इग्नू के माध्यम से जिन विद्यार्थियों ने सत्र जुलाई २०२४ में इग्नू में बुखिला लिया था और अभी तक अगली कक्षा के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ऐसे विद्यार्थी 15 सितंबर 2025 तक 200 रुपए लेट फीस के साथ अपना री-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री-रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विद्यार्थी वेबसाइट में संबंधित लिंक पर जाकर अपना सत्र जुलाई 2025 के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नवीन पंजीयन के लिए भी इन्नू ने अपनी तिथियों में वृद्धि की है। जो विद्यार्थी इम्नू के किसी भी कोर्से में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद एबीसी आईडी बनाकर डीईबी आईडी बनाना अनिवार्य है। यह आईडी बनाने के लिए विद्यार्थी को यूजीसी की वेबसाइट पर जाना होगा।

आदेश जारी किया था। आदेश में 5 सितंबर महाविद्यालयों और विवि अध्ययनशाला में प्रवेश देने निर्देशित किया गया था। पूरक में उत्तीर्ण हुए 16 हजार छात्रों सहित कई विद्यार्थी ऐसे थे, जिन्होंने प्रवेश प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में पंजीयन नहीं कराया था। इन छात्रों को महाविद्यालयीन स्तर पर ऑफलाइन प्रवेश देने कहा गया था। इन छात्रों की ही जानकारी विवि द्वारा निर्धारित पोर्टल में महाविद्यालयों को अपडेट करनी होगी। इस जानकारी के आधार पर ही परीक्षाओं की तैयारी विवि करेगा।

तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी, 17 से बढ़कर हुई 35

सीएम बोले- छत्तीसगढ में वन्यप्राणियों का संरक्षण और संवर्धन प्राथमिकता

हरिभमि न्यज 🕪 रायपर

छत्तीसगढ में बाघों की संख्या पिछले तीन वर्षों में दोगुनी हो गई है। वर्ष 2022 में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अप्रैल 2025 के सर्वेक्षण में यह बढ़कर 35 हो गई। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में

कल्याण बोर्ड

छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। हमारा राज्य वन संपदा और वन्य प्राणियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा,

मुख्यमंत्री ने राज्य में बाघों की संख्या में तीन वर्षों के भीतर हुई दोगुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हए कहा कि बाघों की संख्या 17 से बढ़कर 35 होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में संतोषजनक कार्य हुआ है। उन्होंने कहा, अब हमें अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे। छत्तीसगढ के कई इलाके ऐसे हैं, जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है।



बोर्ड के सदस्यों ने वन्यजीव संरक्षण के लिए अपने महत्वपूर्ण सङ्घाव दिए। बैठक में विधायक धर्मजीत सिंह, चैतराम अटामी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव. सचिव वन अमरनाथ प्रसाद तथ अन्य सदस्य और गैर-शासकीय संस्थाओं के प्रख्यात वन्यजीव विशेषज्ञ उपस्थित थे।

बैठक में राज्य वन्यजीव कल्याण

नीमगांव में बडी संख्या में आते हैं प्रवासी पक्षी

जशपुर जिले के नीमगांव में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेत्र आवश्यक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह अन्य क्षेत्रों की पहचान कर उनका भी विकास किया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यटन बढेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी

वन्यजीवों एवं जैव विविधता क्षति न पहुंचेः केदार

बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा, राज्य में बाघों की संख्या के साथ-साथ अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन में भी वृद्धि हुई है तथा उनके रहवासों में सुधार के प्रयास जारी हैं। आगे इसके और बेहतर परिणाम जनता के सामने आएंगे। उन्होंने कहा, आज पारित प्रस्ताव जनहित के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो शांति का वातावरण स्थापित करने में सहायक होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि वन्यजीवों एवं जैव विविधता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने किया जल सत्याग्रह, लंबित मांगों को लेकर अनूटा प्रदर्शन



हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को खून से पत्र लिख चुके संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राजधानी के तता स्थित धरनास्थल के पास वाले तालाब में उतर जल सत्याग्रह कर विरोध जताया। 10 को सूत्रीय मांगों अनिश्चतकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का मंगलवार को 23वां दिन रहा। रायपुर के साथ बिलासपुर कबीरधाम, महासमुंद, बालोद, कांकेर, भानप्रतापप्र विभिन्न जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का जल सत्याग्रह चर्चा में रहा।

दरअसल, प्रदेशभर के 16 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हडताल पर जाने से न केवल शहरी क्षेत्र, बल्कि दुरदराज के ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ गया है। ऐसे में सर्दी, जकाम, बखार जैसी बीमारी से प्रभावित लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों में ज्यादा रकम देकर इलाज कराना पड रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी

नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन पद्धति में सुधार, लंबित 27 फीसदी की वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख चिकित्सा बीमा और अनुकंपा नियक्ति और मेडिकल या अन्य

बिजनेस साइट

चंदखुरी में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की 625वीं शाखा का शुभारंभ



रायपुर। भगवान श्रीराम के ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मस्थली चंदखरी में छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक की 625वीं शाखा का भव्ये शभारंभ किया गया। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष वीके अरोरा ने फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक कमलेश कंदन, प्रशासनिक अधिकारी संजय गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष श्री अरोरा ने अपने संबोधन में बताया कि कृषि प्रधान चंदखरी क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की यह शाखा स्थानीय किसानों एवं उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खोली गई है। उन्होंने कहा कि यह शाखा समस्त अत्याध्रनिक बैंकिंग सुविधाओं से सुसज्जित है और ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहेगी।

रायपुर में राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता, टॉपगन शूटिंग एकेडमी ने मारी बाजी



रायपुर। माना स्थित शूटिंग रेंज में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 24वीं राज्य स्तरीय श्रटिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्यभर से 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी निशानेबाजी का शानदार पदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि राज्य के युवा खेलों में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और शूटिंग जैसे खेलों में भी छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में राजधानी रायपुर की टॉपगन शूटिंग एकेडमी के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक पदक जीते। उनके इस प्रदर्शन ने न केवल राज्य स्तर पर उन्हें गौरव दिलाया, बल्कि वे अब आगामी ईस्ट जोन प्रतियोगिता (बिहार) और ऑल इंडिया जीवी मावलंकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

छत्तीसगढी दाऊ अग्रवाल समाज का ११ दिवसीय महोत्सव १४ सितंबर से



रायपुर। छत्तीसगढ़ी बाऊ अग्रवाल समाज रायपुर इकाई द्वारा १४ सितंबर से २४ सितंबर तक अग्रुसेन जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह 11 दिवसीय कार्यक्रम पुरानी बस्ती स्थित दाऊ लक्ष्मेश्वर दयाल अग्रवाल भवन में संपन्न होगा। समाज के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव की शुरुआत 14 सितंबर को 'अंदाज अपना अपना' कार्यक्रम से होगी। 15 को अंतर-शालेय प्रतियोगिताएं. १६ से १८ तक महिला मंडल द्वारा रंगोली, मेहंदी, थाल सजाओ, कुर्सी दौड़ और फैंसी ड्रेस का आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर को नृत्य प्रतियोगिता. २० को टेजर हंट और २१ को 'सहाना सफर कार्यक्रम में 50 वर्ष पुरे कर चुके ढंपतियों का सम्मान होगा। 22 को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी और 23-24 को रास-गरबा से समापन होगा।

वित्तीय समावेशन के लिए बैंक ऑफ बडौदा का जागरूकता शिविर



रायपुर। भारत सरकार की वित्तीय समावेशन सैचुरेशन ड़ाइव के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, रायपुर क्षेत्र द्वारा ग्राम मोहदी (ब्लॉक अभनपुर) में एक वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन योजना और जन धन योजना जैसी सरकारी वित्तीय योजनाओं की जानकारी देना था। मुख्य अतिथि शीतल शाश्वत वर्मा (आईआरएस) ने कहा कि ये योजनाएं नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम हैं। शिविर में 500 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस अवसर पर बैंक के महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख दीवाकर प्रसाद सिंह एवं प्रदीप कुमार यादव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिवाकर प्रसाद सिंह ने ग्रामीणों को सरकारी वित्तीय योजनाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया और बैंक ऑफ बड़ौदा की समावेशी बैंकिंग पहलों को से

सड़क सुरक्षा के लिए रायपुर में निकली जागरूकता बाइक रैली

रायपुर। रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (राडा) एवं युवा कैट के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा एवं हेलमेट जागरूकता के लिए भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। मरीन ड्राइव से प्रारंभ हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कैट

अधीक्षक लाल उमेद सिंह ऍवं विंशेष अतिथि अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक यातायात प्रशांत शुक्ला ने रैली को



संबोधित करते हुए हेलमेट को जीवनरक्षक बताते हुए इसके नियमित उपयोग की अपील की। राडा अध्यक्ष रविन्द्र भसीन ने इसे केवल रैली नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का संकल्प बताया। बड़ी संख्या में व्यापारियों, युवाओं व नागरिकों ने

उत्साहपूर्वक भाग लेकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस आयोजन में राडा व युवा कैट की पूरी टीम, पदाधिकारी एवं प्रमुख गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नवा रायपुर सोलर सिटी योजना में बदलाव, अब हर विमाग के लिए होगी अलग योजना

एमपी से बाघ एवं बाघिन

के टांसलोकेशन की

मिली अनमति- पांडेय

बोर्ड के सदस्य सचिव अरुण कुमार पांडेय, प्रधान

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा विभागीय

गया। सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में

उपलब्धियों और एजेण्डा पर प्रस्तुतीकरण दिया

सर्वाधिक बाघ अचानकमार टाइगर रिजर्व में हैं।

राज्य वन्यजीव बोर्ड की 14वीं बैठक में पारित

निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण

प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उदंती-सीतानदी

टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला

टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश से बाघ एवं बाघिन के

ट्रांसलोकेशन की अनुमति मिल चुकी है। शीघ्र ही

ट्रांसलोकेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

प्रदेश में भी सोलर से बिजली का उत्पादन करने का काम अब तेजी से करने की तैयारी 🛮 चल रही है। केडा कई योजनाओं पर काम कर रहा है।

क्रेडा का 10 मेगावाट का ६५ करोड़ का प्रस्ताव हो चुका है नामंजूर

सोलर सिटी भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए क्रेडा ने 10 मे गा वा ट बिजली उत्पादन का 65

नया रायपुर को

करोड का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के पास भेजा था, लेकिन इसको नामंजुर करके क्रेडा को हर विभाग के लिए अलग-अलग योजना बनाकर देने के लिए कहा गया। अब क्रेडा ने एनआरडीए के भवनों के साथ लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के भवनों के हिसाब से योजना बनाकर प्रदेश सरकार के पास मंजरी के लिए भेजा है। इन योजनाओं को मंजुरी मिलने पर काम प्रारंभ होगा। नया रायपुर के सभी



सरकारी दफ्तर, मंत्रियों के बंगले, रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल हैं।

देश में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने सोलर बिजली की तरफ रुख किया है। इसके लिए देश के कई राज्यों में भी काम हो रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर काम चल रहा है, वहीं राज्यों में बड़े-बड़े सरकारी और निजी सोलर प्लांट भी लगाने का काम हो रहा है। प्रदेश में राजनांदगांव में बडा सोलर प्लांट लगा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री सर्य घर योजना में भी घरों की छतों पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। क्रेडा 20 हजार सोलर कृषि पंप भी लगाने वाला है।

अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी का

जीएसटी 2.0 पर मुख्यमंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधियों की बैठक

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

सरलीकरण 2.0 विषय पर प्रदेश के व्यापारिक प्रतिनिधियों मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कैट छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मंत्रालय में श्री साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में



हए। इस मौके पर कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी ने कहा कि अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी 2.0 सरलीकरण प्रक्रिया व्यापारियों के लिए राहत और सुधार की नई सौगात लेकर आएगा। कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जाएगा। इससे न केवल छोटे एवं मध्यम व्यापार जगत में नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। बैठक में कैट छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल, कैट राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी के नेतृत्व में शामिल हुआ। प्रतिनिधमंडल में अमर पारवानी. विक्रम सिंह देव, परमानंद जैन, सरिंदर सिंह, अवनीत सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

जीएसटी २.० की सौगात के लिए चैंबर ने मख्यमंत्री-वित्त मंत्री से की मलाकात

छत्तीसगढ़ चैंबरऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में चैंबर के प्रतिनिधमंडल सदस्य संतोष जैन, तिलोक बरड़िया, वासुदेव जोतवानी, जसप्रीत सलूजा, शांतिलाल बरडिया ने मख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से सौजन्यँ मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के ऐतिहासिक निर्णय **GST** 2.0 के

लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आभार पत्र सौंपा। चैंबर अध्यक्ष सतीश थौरानी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरदर्शिता में भारत आज विश्व की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और अगली पीढी के लिए जीएसटी सुधार 2025 के लिए दो स्लैब के साथ भारत की कर संरचना को सरल बनाए जाने की प्रणाली का स्वागत किया है।

गणेश प्रतिमा विसर्जन में डीजे का शोर 120 डेसिबल के पार, शहरवासियों की उड़ी नींद

हरिभूमि न्यूज 🕪 रायपुर

राजधानी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम मंगलवार को देर रात तक जारी रहा। इस दौरान कई समितियों ने विसर्जन स्थल पर तेज डीजे

■ 90 डेसिबल से अधिक सुनने की क्षमता होने लगती है कम

सिस्टम इस्तेमाल किया, जिसकी ध्वनि 120 डेसिबल से भी अधिक दर्ज की गई, जबिक इतनी

तेज आवाज कानों के लिए हानिकारक मानी जाती है। समितियों ने डीजे संबंधी नियमों की अनदेखी करते हुए जोरदार ध्वनि में डीजे बजाया। महादेवघाट पर विसर्जन के लिए आई प्रतिमाओं के पीछे लगे



बढ़ा दी लोगों की समस्या

सामान्य व्यक्ति के लिए 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक मानी जाती है। लगातार १०० से १२० डेसिबल ध्वनि के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति बहरेपन का शिकार हो सकता है। यह पूरी तरह से कानों के लिए नुकसानदेह है। 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि से सुनने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो जाती है। विसर्जन के दौरान तेज डीजे के शोर ने एक बार फिर लोगों की समस्याएं बढ़ा ढीं।

डीजे सिस्टम ने आसपास के लोगों को रातभर परेशान रखा। हरिभृमि ने शहर के विभिन्न पंडालों और विसर्जन स्थल पर दर्जनों डीजे का साउंड स्तर मापा, जो निर्धारित सीमा

से कहीं अधिक था। समितियां पंडाल से विसर्जन कुंड तक तेज आवाज में डीजे के साथ प्रतिमाओं को ले जाती रहीं, जिससे लोगों की









एजुकेशन अलर्ट

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती : अब 18 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका

रायपुर। रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 18 सितंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं बिना तुरंत ही बिना लेट किये हुए आरआरबी चंडीगढ़ की ऑफिशियल

rrbcdg.gov.in पर जाकर फॉर्म भर लें। 18 सितंबर के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। पैरामेडिकल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से संबंधित क्षेत्र में बीएससी, डिप्लोमा, GNM, D.Pharm, DMLT आदि किया हो। इसके साथ ही उम्मीदवार की न्यूनतम आयु पदानुसार 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु ४० वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमनुसार छूट दी जाएगी। आवेदन से पहले अभ्यर्थी पात्रता एवं मापदंड से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का



आवेदन फीस भर्ती विवरण

इस भर्ती में आवेदन के साथ ही जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को ५०० रुपए जमा करने होंगे, वहीं एससी. एसटी. पीएच एवं महिला अभ्यर्थियों को 250 रुपए का भुगतान करना होगा। आवेदन शूल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। माध्यम से आरआरबी पैरामेडिकल के तहत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनकी कुल संख्या ४३४ है। पदानुसार नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 272 पद, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पद, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड-॥ के लिए 33 पढ़, फार्मासिस्ट के लिए 105 पद, रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन के लिए ४ पद, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 4 पद और लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए 12 पद आरक्षित हैं।

समाज इवेंट

अवलोकन अवश्य कर लें।

पितृपक्ष में परंपराओं का रखें ध्यान, श्राद्ध में पिज्जा-बर्गर नहीं, पारंपरिक भोज करें अर्पण

रायपुर। पितृपक्ष के पावन अवसर पर प्रदेशभर में श्रद्धालु पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भोज जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में जुटे हुए हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों की प्रिय भोजन सामग्री तैयार कर उन्हें श्रद्धापर्वक अर्पित कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म में कौआ, गाय और कुत्ते को भोजन कराना शुभ एवं पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि ये तीनों यमदतों के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन, इन दिनों शहर में कौओं की संख्या में कमी देखी जा रही है. जिससे कई परिवार श्राद्ध भोज के दौरान अन्न अर्पण को लेकर दुविधा में हैं। इस संबंध में पंडितों का कहना है कि यदि कौआ न मिले तो गाय और कुत्ते को निस्वार्थ भाव से भोजन कराना भी उतना ही पण्यकारी होता है। वहीं कई स्थानों पर श्राद्ध में फास्ट फुड जैसे पिज्जा, बर्गर तैयार किया जा रहा, जिसे लेकर हरिभूमि ने पंडितों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्राद्ध भोज में केवल सात्विक और पारंपरिक भोजन जैसे खीर, पुरी, अरवा चावल, दाल और मौसमी सब्जियों का ही प्रयोग होना चाहिए, ताकि श्रद्धा और शास्त्र दोनों की मर्यादा बनी रहे। परंपराओं की शुद्धता बनाए रखते हुए, पितृपक्ष को श्रद्धा, संयम और शुद्ध आचरण से मनाने

की बात कही है।



पिज्जा-बर्गर नहीं परंपरागत भोजन दें

पितृपक्ष पर पुजारियों ने कहा कि पूर्वजों के श्राद्ध में परंपरागत भोजनों का ही प्रयोग करें। पितरों को देवतुल्य माना जाता है और उन्हें वही भोजन अर्पित करना चाहिए, जो शास्त्रों में तय है। उन्होंने कहा कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध भोज में पिज्जा, बर्गर जैसे आधुनिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना सही नहीं है। इसके बजाय खीर, पूरी, दाल, अरवा चावल, कहु जैसी पारंपरिक चीजें ही अर्पित की जाएं, जिससे श्रद्धा और शास्त्र दोनों की मर्यादा बनी रहे।

श्राद्ध पर कौआ न मिले तो गोमाता को कराएं भोजन इन दिनों श्राद्ध कर्म में पितरों को तर्पण और भोजन अर्पित करने की

परंपरा है, जिसमें कौए, कृत्ते और गाय को भोजन कराया जाता है। पं. मनोज शुक्ला ने बताया कि यदि श्राद्ध के दिन कौआ दिखाई न दे तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में गोमाता को भोजन कराना भी धार्मिक दृष्टि से उतना ही पुण्यकारी माना गया है। गोमाता में सभी देवताओं का वास होता है और उन्हें अन्न अर्पण करना पितरों की आत्मा की तृप्ति का प्रतीक है।

सर्व पित अमावस्या पर परे परिवार के पितरों की होगी पूजा पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या को उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाएगा, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है या जिन्हें किंसी कारणवश श्राद्ध नहीं दिया जा सका। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 21 सितंबर की सुबह 12 बजकर 16 मिनट से लेकर 22 सितंबर की सुबह 1 बजकर 23 मिनट तक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की

अमावस्या तिथि या सर्व पितृ अमावस्या मनाया जाएंगा। वहीं 15

सितंबर नवमी तिथि मातृश्रद्ध को समर्पित रहेगा।

शहर के गुढ़ियारी, बीटीआई ग्राउंड, समता कालोनी, ललित महल में होगा रास गरबा का भव्य आयोजन

नवरात्रि के गरबा नाइट्स में धमाल मचाएंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस, मुंबई-कोलकाता के बैंड्स देंगे लाइव परफॉर्मेंस

शारदीय नवरात्रि पर शहर के प्रमुख संस्थानों एवं सामाजिक सदस्यों द्वारा भव्य रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। शहर में गुढ़ियारी, बीटीआई ग्राउंड, समता कालोनी, ललित महल समेत अनेक स्थानों पर रास गरबा की धुम रहेगी। इस अवसर पर गरबा समिति के संचालक बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस, मुंबई-कोलकाता के बैंड ग्रुप को शहर में आमंत्रित किया गया है, जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपने पारंपरिक संगीत से गरबा स्थल को भक्तिमय राग में सराबोर नजर करते दिखेंगे।

रायप्र। इस बार शहर में 20 से अधिक जगहों पर गरबा का आयोजन किया गया है, जहां मैदान तैयार किए जा रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था की गई है। इस बार भी प्रवेश के नियमों में पारंपारिक पोशाक ही रखी गई है। नवरात्रि के करीब आते ही इन दिनों बाजारों में पारंपरिक परिधानों की खरीदारी शुरू होने लगी है, जहां चिनया चोली, केडिया, बांधनी की चुनरी और पारंपरिक गहनों की खूब खरीदारी हो रही हैं। फैशन डिजाइनर्स भी खास गुजराती और राजस्थानी लुक के फ्यूजन डिजाइनर ड्रेस तैयार कर रहे। रोटरी क्लब ऑफ एलिगेंस और रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितंबर को भव्य गरबा का आयोजन वीआईपी रोड स्थित ओमाया हॉल में किया जा रहा है। संस्थान की नीतू सिंघानिया ने बताया कि कार्यक्रम में जयपुर से नंदिनी त्यागी और अनुज चितलांगिया गरबा गीत के लिए आमंत्रित किए गए हैं।



लाइव परफामस के लिए कालकाता आर सरत के डाज

माहेश्वरी समाज द्वारा २७ सितंबर से १ अक्टूबर तक पारंपरिक गीतों पर रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन इंडा स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित है। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र कोलकाता और सूरत के डींजे तथा लाइव परफॉर्मेंस के लिए मुंबई के संगीतकार को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम संयोजक निलेश मुंधड़ा ने बताया कि आयोजन की धनराशि से एक वर्ष तक अपर्णा दिव्यांग पिंट्लिक स्कूल के किन्हीं 5 बच्चों के पढ़ाई के खर्च की समाज अंपने स्तर पर जिम्मेदारी लेगा।

मैग्नेटो मॉल में प्री-गरबा सेलिब्रेशन

मैग्नेटो मॉल में प्री-गरबा सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। जहां 14 सितंबर व 20-21 सितंबर को ग्राउंड फ्लोर पर यह आयोजन होगा। निशुल्क गरबा इवेंट में बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट डांस स्टेप, बेस्ट जोड़ी, बेस्ट ग्रुप, बेस्ट मेकअप केटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। यह आयोजन शाम ५-८ बजे तक होगा।

राजधानी में कई स्थानों पर निशुल्क गरबा महाराष्ट्र मंडल द्वारा २७ सितंबर को पारंपरिक गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो समाज के सभागार में रात्रि ८ बजे से शुरू होगा। जहां मंडल के 16 केंद्रों की महिलाएं व परिजन शामिल होंगे। वहीं शहर के अन्य सदस्य भी यहां निशूल्क गरबा

में शामिल् हो सकेंगे पारंपरिक-धार्मिक संगीत पर रास गरबा

छत्तीसगढ अग्र युवा मंच के सदस्य अमित अग्रवाल ने बताया कि 23 और 24 सितंबर को पुरानी बस्ती स्थित अग्रसेन महाविद्यालय के नजबीक गरबा का आयोजन कर रहे हैं। निशुल्क आयोजन अग्रुसेन जयंती के खास अवसर पर रखा गया है, जहां पारंपरिक व धार्मिक संगीत पर गरबा रास किया जाएगा

हरिभूमि-आईएनएच न्यूज का रास गरबा

नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर में भक्ति. संगीत और पारंपरिक लोकनृत्य का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस वर्ष हरिभूमि, आईएनएच न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में शहर के विभिन्न स्थलों पर भव्य रास गरुबा का आयोजन होने जा रहा है।

तीन दिवसीय रास गरबा, पहले दिन एक्ट्रेस ईशा मालवीय

गुंजन्स इवेंट्स द्वारा ललित महल में 28-30 सितंबर तीन र्दिवसीय रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पहले दिन मुख्य अतिथि शेकी-शेकी सॉन्ग से मशहूर हुईं एक्ट्रेस ईशा मालवीय शहरवासियों के साथ तालें से ताल मिलाकर गरबा खेलने शामिल होंगी। कार्यक्रम की आयोजक गुंजन चौहान ने बताया कि रास गरबा के पहले दिन बॉलीवुड थीम पर शाम सजेगी, जहां लोग गरबा का आनंद लेते नजर आएंगे। वहीं दूसरे दिन ऐश्वर्या राज भकुनी और तीसरे दिन मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ डॉ. अंजली पवार शामिल होंगी।

29 सितंबर को एक्ट्रेस ऐश्वर्या राज भाकनी का शो

संकल्प नवरात्रि एवं रास गरबा उत्सव समिति शंकरनगर, बीटीआई ग्राउंड में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक डांडिया का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम प्रभारी अमरजीत सिंग ने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन से ही मां दुर्गा की स्थापना के साथ रास गरबा का प्रारंभ होगा। जहां पांरपरिक परिधान के साथ लोकगीत व गजराती संगीत पर लोग थिरकेंगे। वहीं २९ सितंबर को महादेव धारावाहिक की अभिनेत्री ऐश्वर्या राज भाकुनी शामिल होंगी।

गरबा में एनिमल फिल्म की अभिनेत्री सोनाली बत्रा

हरिभुमि-आईएनएच न्युज द्वारा ਕੀ<u></u>आईपੀ रोड स्थित ਫ ਹੈਂਤ ਜੀलम में रास गरबा-2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी अनिल जोतसिंघानी ने बताया कि 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजन किया जा रहा है, जहां 2 एकड़ ग्राउंड को गरबा प्रेमियों के लिए सजाया जा रहा है। पहले दिन एनिमल फिल्म की अभिनेत्री सोनाली बत्रा शामिल होंगी। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध डंडा गीत पर भी गरबा की शाम सजेगी, जहां गरबा प्रेमियों को छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति में रंगने अनेक लोकगीत शामिल किए

नवरात्रि में नौ दिनों तक सजेगी गरबा की शाम

राजधानी रास गरबा समिति गुढ़ियारी में शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों तक गरबा की शाम सजेगी। कार्यक्रम आयोजक हनी बग्गा ने बताया कि गरबा ग्राउंड में रोजाना थीम बेस्ड तैयार लोगों की सम्मानित किया जाएगा, वहीं बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट ग्रुप जैसे अनेक पुरस्कार

रंगों में बसी कल्पनाएं, रेनबो फिंगर्स की ड्रॉइंग प्रतियोगिता में बच्चों की प्रतिभा निखरी

इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी आइडियाज को मंच देने के उद्देश्य से रेनबो फिंगर्स द्वारा ड्रॉइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में शहर के 20 से अधिक स्कूलों के 60 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने भाग लिया, वहीं अपनी अद्वितीय कलाकृतियों से सभी का मन मोह लिया। स्पर्धा के दौरान प्रतिभागियों ने पर्यावरण, कार्ट्न और सामाजिक भावनात्मक विषयों पर चित्र तैयार किया। इस दौरान नन्हे छात्रों ने रंगबिरंगे चित्रों में कहीं अपने हाथ

की छाप तो कहीं इमोजी से

क्रिएटिविटी तस्वीर तैयार की।

20 स्कूलों के 60 छात्रों ने लिया हिस्सा



विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।

रचनात्मकता को निखारते हैं. बल्कि स्कीन टाइम को सीमित कर उनकी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने में मददगार साबित होते हैं। सभी परिजनों को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, वहीं बच्चों को पारंपरिक त्योहार और संस्कृति के साथ जोड़कर रखना भी माता-पिता की जिम्मेदारी है। जरूरत से अधिक मोबाइल या उपकरणों का प्रयोग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बरा प्रभाव डाल सकता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एएसपी अनामिका जैन शामिल हुईं, जिन्होंने

संस्थान के सेंटर ऑफ स्पेस एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन आयोजन में शहर के ग्वाला द्वारा द्वारा 'रिमोट सेंसिंग डेटा रेस्टोरेंट, अमर सुपरमार्ट, केक विश्लेषण के लिए क्वांटम अफेयर और भर्ती भावन्स मशीन लोनेग' विषय पर एक पब्लिकेशन्स जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ वार्ता का आयोजन प्रायोजकों का विशेष योगदान किया गया। इस सत्र में रहा। कार्यक्रम की संस्थापक एनआईटी कर्नाटक श्रद्धा वर्मा ने कहा कि ड्रॉइंग एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. श्याम

लाल मुख्य वक्ता रहे। डॉ. श्याम लॉल ने अपने वक्तव्य में बताया कि उपग्रहों से प्राप्त होने वाले विशाल डेटा के कशल विश्लेषण के लिए अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर एआई और क्वांटम

कंप्यृटिंग तकनीकों की ओर

बढना होगा।



एनआईटी में अंतरिक्ष डेटा विश्लेषण में

संभावनाओं पर विशेष व्याख्यान सत्र

उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यटिंग, जो सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट जैसे क्वांटम सिद्धांतों पर आधारित है, डेटा प्रोसेसिंग की गति और सटीकता में क्रांतिकारी सुधार ला सकती है। एक सैटेलाइट प्रतिदिन औसतन 150 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करता है, जिसे पारंपरिक सिस्टम से प्रोसेस करना चुनौतीपूर्ण होता है। सत्र में प्रो. एस. सान्याल, डॉ. सौरभ गप्ता, डॉ. कपिल कमार सोनी सहित केंद्र के शोधार्थी भी उपस्थित रहे। इस दौरान संस्थान को नासा स्पेस एप चैलेंज-2025 के लिए लोकल नोडल सेंटर नामित किया गया है।


विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर इस साल 'चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड' थीम पर मनाया जा रहा

और क्रॉफ्ट न केवल बच्चों की

परिजनों से साझा करें अपनी सफलता-असफलता की स्थिति तो मन में कभी नहीं आएंगे नकारात्मक विचार

कार्नर न्यूज

रायपुर। आधुनिक जीवनशैली में सोसाइटी प्रतिस्पर्धा, सफलताओं का तुलनात्मक विचार लोगों को नेगेटिव माइंड की ओर बढ़ा रहा है। हद से ज्यादा तुलना करना नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है और सुसाइड जैसे विचार आने लगते हैं। इससे बचने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने उपाय बताए हैं। देश-प्रदेश में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अपेक्षाओं और उपेक्षाओं से भरे जीवन में हर आयवर्ग के लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। स्कुली बच्चे भी इससे बचे नहीं हैं। परिवार से झगडा हआ, परीक्षा में नंबर कम आएं या कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो, व्यक्ति को तनाव हो ही जाता है। ऐसे में कई लोग आगे बढ़कर समस्या से निपटने के तरीके खोजते हैं, वहीं कुछ लोगों के मन में आत्महत्या का विचार आता है। यह कहना है जाने-माने मनोरोग चिकित्सक डॉ. ओमप्रकाश तिवारी का। उन्होने बताया कि विश्व



परिवार के सदस्यों से घुल मिलकर फायदेमंद मनोचिकित्सक डॉ. चारू नामब्वे बताती हैं, आत्महत्या जैसे

> विचार से बचने में परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहने, समय समय पर समस्याओं को साझा करने से मानसिक तनाव से बच सकते हैं। वह हर परिवारों को अपने घर के सदस्यों के साथ संवाद, सहयोग और केयरनेस बिहेवियर रखना फायदेमंद साबित होता है। वहीं परिवार में एक-दूसरे के मनोबल को

बढाते रहना चाहिए। किसी भी सदस्य को कोई समस्या में घिरे देखें तो उनसे बातचीत करें और उन्हें उस समस्या से निकलने के उपाय करने चाहिए।

स्वास्थ्य संगठन के मृताबिक, दुनियाभर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। दुनिया में तेजी से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। यह एक वैश्विक चुनौती बनकर सामने आई है। आत्महत्या जैसे विचार के अवसाद से लोगों को बाहर निकालने के लिए 10 सितंबर को विश्व हरिभृमि की टीम ने मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सकों आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। साथ से बातचीत की।

ही दुनियाभर में जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की इस साल की थीम 'चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड' रखी है। लोगों में बढ रहे आत्महत्या के मानसिक अवसाद से बचने के उपाय जानने

जिंदगी में आगे नहीं बढ पाऊंगा...जैसे विचार कारण

साइकोलॉजिस्ट. कॉनिनटिव हाइप्जोथेरेपिस्ट डॉ. अभिनव श्रीवास्तव ने बताया, जीवन में किसी को कभी भी सुसाइड करने का ख्याल आ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई नहीं समझ रहा है। वह दर्द में इतना ज्यादा होता है कि उसे लगता है कि अब मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो मुझे अपने आप को खत्म कर देना चहिए। वह लाइफ को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इससे उबरने के लिए सकारात्मक जीवनशैली से बचा जा सकता है।

यह एक स्लो प्रोसेस है, जो लंबे समय से मन में बैटा रहता है

इस सवाल के जवाब में मनोवैज्ञानिक डॉ. कल्पना शर्मा का कहना है कि सुसाइड करने का फैसला व्यक्ति एक दिन में तो नहीं लेता, वह काफी समय से अपने आप को कोस रहा होता है कि वह अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। आज के समय में कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया है पैरेंट्स अपने बच्चों को कम्पेयर करते हैं. वहीं टीचर्स अपने स्टूडेंट को कम्पेयर करते हैं। इसके अलावा वर्क प्लेस में आपका एंप्लॉयर आपको कम्पेयर करता है। यह भी मन में सुसाइड की ओर कुछ लोगों को धकेलता है।

सिटी लाइव

स्वच्छता अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने दिया संदेश



रायपुर। गणेश झांकियों के प्रदर्शन के दौरान शहर के सडकों पर फैली फुल-पत्तियों, प्लास्टिक कचरे के साफ-सफाई की गई। इसके लिए हमर चिन्हारी साहित्य समिति के सदस्यों ने स्वच्छता अभियान चलाया। समिति के सदस्यों ने मंगलवार की सुबह 7 बजे से जयस्तंभ से मालवीय रोड, शारदा चौक रोड, केके रोड तक सड़कों पर फैली पॉलीथिन, पटाखे के रैपर, पानी पाउच, प्लास्टिक गिलास, फूल पत्तियों समेत कचरे की साफ-सफाई की। हमर चिन्हारी साहित्य समिति के संरक्षक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि समिति द्वारा जनसेवा और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रेरणात्मक संदेश दिया गया। समिति के सदस्य स्वच्छता सहित विविध

स्वच्छता के प्रति प्रेरित हुए लोग

हमर चिन्हारी साहित्य समिति के सदस्यों द्वारा चलाए गए इस स्वच्छता अभियान को आमजनों का भी समर्थन मिला। चिन्हारी समिति के सदस्यों को साफ-सफाई करते देख शहर के आमजन प्रेरित हुए।

सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी निभा रहे हैं। समिति के 8 से 10 सदस्यों ने सुबह से ही गणेश झांकी के दौरान सड़कों पर, जूता चप्पल, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े, फूल या जनता द्वारा संडकों पर कचरा फैला दिया जाता है, उस कचरे को स्वच्छता अभियान के तहत हमर चिन्हारी परिवार द्वारा निस्वार्थ सेवाभाव से साफ किया गया।

सिटी इवेंट

भारतीय शतरंज खिलाडी प्रवीण थिप्से कल खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उभरते शतरंज खिलाडियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मार्गदर्शन देने के लिए ग्रैंड मास्टर एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रवीण थिप्से 11 सितंबर से राजधानी पहुंच रहे हैं। वे 11 से 17 सितंबर तक राज्य के 20 चयनित प्रतिभाशाली खिलाडियों को विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे। यह आयोजन छत्तीसगढ प्रदेश शतरंज संघ की पहल पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य के खिलाडियों को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रतिनिधित्व के लिए तैयार करना है। संघ के इस प्रयास से खिलाडियों और उनके आभभावको म उत्साह का वातावरण है।

14 सितंबर को लिटिल मास्टर शतरंज स्पर्धा

छत्तीसगढ प्रदेश शतरंज संघ एवं अंबुजा सिटी मॉल के संयुक्त तत्वावधान में 14 सितंबर को 'लिटिल मास्टर शतरंज स्पर्धां का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में अंडर 7, 9, 11, 13 और अंडर 15 आयुवर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता सुबह 11 बजे शुरू होगी और समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह शाम 7 बजे आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश शुल्क 500 निर्धारित है और एंटी की अंतिम तिथि 12 सितंबर तक रखी गई है। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक इंटरनेशनल आर्बिटर अनीस अंसारी. व फिडे आर्बिटर हर्ष शर्मा और रॉकी देवांगन सहायक निर्णायक के रूप में शामिल होंगे।

समाज इवेंट

सफलता के लिए बनाएं कठोर नियम और खुद तय करें लक्ष्य



रायपर। सिविल लाइंस शैक्षणिक संचालित सामाजिक युवा संस्था की स्थापना एम. राजीव द्वारा की गई। उनकी पहल पर सोमवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों के बारे में सजग करना और कॅरियर निर्माण में प्रेरक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। मख्य अतिथि के रूप में उप निदेशक रोजगार का दायित्व निभा रही पुष्पा चौधरी ने आत्म-विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। इसमें पुराने छात्रों, शिक्षकों और रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता ने आगे कहा कि युवाओं को कॅरियर निर्माण, आत्मविश्वास और रोजगार के अवसरों पर ध्यान देना होगा । इसके लिए बेहतर होगा कि अपने लिए कठोर बनिए और एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। सफलता के लिए आत्म-अनुशासन के साथ दृढ़ संकल्प

होना जरूरी है।

सव्यवस्थित दिनचर्या कॅरियर निर्माण के लिए जरूरी

उन्होंने समय प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। समयबद्ध दिनचर्या का पालन करने से एक सुव्यवस्थित दिनचर्या कॅरियर निर्माण के लिए मिलती है। युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने की सलाह देते हुए कहा कि इसके लिए सतत प्रक्रिया है। हर दिन कुछ नया सीखें और कौशल को बेहतर बनाएं। संचार कौशल के संदर्भ में कहा कि इसमें मुखर होकर बोलें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मां बच्चे को दूध तभी देती है, जब वह रोता है। वैसे ही अपनी बात रखते समय आत्मविश्वास के साथ अपनी राय व्यक्त करना और प्रभावी संचार ही कॅरियर में सफलता की कुंजी है। नई तकनीक को जानें और उसे सीखने का प्रयास करें। यह समय की मांग और जीवन की जरूरत है।

• लोकपर्व श्रृंखला के पहले दिन मुक्ताकाशी मंच पर लोक कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति

पंडवानी की गूंज से महाभारत की गाथा हुई जीवंत, कौरव पांडव की बाल लीला से कुंती के ममत्व भावों ने किया मंत्रमुग्ध

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित लोकपर्व श्रृंखला के पहले दिन मुक्ताकाशी मंच पर प्रदेश की लोक संस्कृति की छटा बिखरी। शुरुआत हुई पंडवानी और देवार गीतों की दमदार प्रस्तुति से, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रसिद्ध कलाकार चेतन देवांगन ने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित पंडवानी गाते हुए श्रीकृष्ण, अर्जुन संवाद और द्रौपदी स्वयंवर का जीवंत मंचन किया।

रायपुर। परंपरागत वेशभूषा में वाद्ययंत्रों की संगत के साथ जैसे ही कथा का गायन शुरू हुआ, समां तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्जुन द्वारा घुमती हुई मछली को लक्ष्य कर स्वयंवर में विजय प्राप्त करने की गाथा सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद नवा अंजोरी संस्था के कलाकार मंच पर आए और छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी। सारंगी, तबला, बैंजो, हारमोनियम और मंजीरा की थाप पर गंजा, जय हो छत्तीसगढी महतारी..., संस्था की मुख्य निर्देशिका व गायिका रेखा देवार ने छत्तीसगढीं लोकगीत गाए, वहीं मोना देवार और दामिनी देवदत्त ने गीतों की लय पर



प्रस्तुत किया। दर्शकों की हंसी - खुशी दोगुनी हुई जब डॉ. सोनऊराम निर्मलकर और पवन यादव हास्य शैली में मंच पर आए और सबको ठहाकों से

लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी कलाकार एकसाथ मंच पर आए। उनकी प्रस्तृतियों पर दर्शकों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाईं और कलाकारों का उत्साह बढाया।



महाभारत के प्रसंगों की जीवंत प्रस्तुति

लोकपर्व श्रृंखला की दूसरी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ी पंडवानी से जुड़ा रहा। इस प्रस्तुति का निर्देशन चेतनलाल देवांगन ने किया। कलाकारों ने वेढमती शैली की पंडवानी में महाभारत के प्रसंगों को सजीव कर दिया। मंच पर कौरव और पांडव के बालपन, दुर्योधन का बैर भाव, राज्य सिंहासन की लड़ाई, भीमसेन और मां कुंती के प्रेमभाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। गाथा गायन, संवाद शैली और लोकवाद्यों की ताल ने ऐसा वातावरण बनाया, मानो दर्शक महाभारत के उसी युद्धकाल में पहुंच गए हों। दर्शकों ने तालियों और जयघोष से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया और इस प्रस्तुति को अविस्मरणीय बना दिया।

दिखा लोक संस्कृति का जुड़ाव

कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय और सुमधुर गायन के माध्यम से महाभारत की गाथा को मंच पर सजीव कर दिया। चेतनलाल देवांगन के निर्देशन में प्रस्तत यह पंडवानी न केवल दर्शकों को रोमांचित कर गई, बल्कि उन्हें लोकसंस्कृति और ਧਦੰਧਦਾ से भी जोड़ने में सफल रही। कार्यकम में कलाकार चेतराम साह ने हारमोनियम, कपिल साह ने तबला. रामानंद लोधी ने रागी, महैश वर्मा ने बैंजो और भूपेश कुमार ने मंजीरा पर संगत दी। वाद्ययंत्रों और गाथा गायन की खूबसूरत संगति ने महाभारत के प्रसंगों को दर्शिको के सामने और भी प्रभावशाली ढंग से

बिना भिवत के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती

रायपुर। कारगिल चौक सुंदर नगर में श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के पूर्व मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। इसके बाद कथाव्यास आचार्य पं. नंदकुमार चौबे ने भगवान के रूप वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का स्व सतघन, चितघन और आनंदघन अर्थात सिच्चदानंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति के लिए है, माध्यम है, जिनके द्वारा दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नैमिषारण्य में जब कुलपति शौनक के नेतृत्व में 88,000 महात्माओं ने एक लंबी यज्ञ सत्र शुरू की, तब सूतजी महात्मा (या उनके पुत्र सूत उग्रश्रवा) का आगमन हुआ, जिन्होंने इन ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाईं और सभी



18 पुराणों की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैमिषारण्य भारत का एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जो उत्तरप्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है और यह तपोभिम के रूप में विख्यात है। यह कार्यक्रम प्रदीप सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। कथा सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

श्रद्धापूर्वक मागवत कथा सुनने से मगवान की होती है कृपा आचार्य चौबे ने आगे कहा, तुंगभद्र नदी के किनारे गांव में आत्मदेव नाम के बाह्मण और धुंधली नाम की उनकी पत्नी रहती थी, उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण आत्मब्व ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्हें जंगल में एक

महात्मा से आशीर्वाद स्वरूप पत्र प्राप्ति के लिए एक फल दिया गया. जिस फल को धुंधली ने गाय को खिलाकर अपनी बहुन के पुत्र धुंधकारी को अपना पुत्र मान लिया और महात्मा के आशीर्वाद के कारण से गाय का एक पुत्र जन्म हुआ, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया, कालांतर में धुंधकारी के गणिका संगत और उनके गलत व्यवहार से दुखी होकर आत्मदेव ब्राह्मणं जंगल चले गए। धुंधली कुएं में गिरकर मृत्यु प्राप्त हो गई। अंततः गाड़ी गणिकाओं द्वारा धुंधकारी को भी मार डाला गया, कोई अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण धुंधकारी प्रेत योंनी को प्राप्त की।

सामान गोत्र में नहीं करना चाहिए विवाह जीवन से नष्ट हो जाते हैं विशेष गुण

हर व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट गुण होता है। जब भी समान गोत्र में विवाह किया जाता है तो उनका यह गुण नष्ट हो जाता है। यही वजह है कि शास्त्रानुसार समान गोत्र में विवाह को वर्जित माना गया है। मुंबई से पहुंचे धर्मसभा विद्वतसंघ श्रीश्री जगतगुरु शंकराँचार्य पीठम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मचारी निरंजनानंद आचार्य वेदमुर्ति धनंजय



ज्ञानयज्ञ सप्ताह के तीसरे दिन इस आशय का मार्गदर्शन दिया। आचार्य शास्त्री ने कहा कि हम सब में आज भी जो विशेष गुण मौजूद हैं, उसकी वजह[ँ] हमारे पूर्वज हैं. जिन्होंने अलग-अलग गोत्र में विवाह कर अपने-अपने गुणों को

संरक्षित और सुरक्षित रखा है। भागवत कथा सप्ताह के तीसरे दिन आचार्य धनंजय शास्त्री ने सृष्टि की उत्पति और सती-शिव विवाह की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह चोट लगने पर हमारा सारा ध्यान उस चोट पर केंद्रित मन लगाना चाहिए। आचार्य धनंजय शास्त्री ने बताया कि मैकाले शिक्षा के अनसार मनष्य की उत्पति बंदरों से हई है. जबिक हमारे शास्त्र बताते हैं कि मानव की उत्पति ऋषि-मुनियों से हुई है। आमतौर पर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पद्धित की कक्षाओं में एक अनसलझा सवाल चर्चा में रहता है कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। वेदों के अनुसार कर्दम ऋषि जब लंबी तपस्या में बैठे थे तो उन्हें निहारते हुए और उनकी विभिन्न मुद्राओं में कल्पना करते हुए उनकी पत्नी देवहुति में ८४ लाख आकृतियां बनाई थीं। उनमें एक मुर्गा भी था।

राज्य की धरोहरों और पुरातन संस्कृति बचाने पर दियाँ जोर



रायपुर। दुर्गा महाविद्यालय में राज्य के स्वर्णिम 25 वर्ष विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी महाविद्यालय के छात्र परिषद्ध संचालन समिति द्वारा राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष महोत्सव के अवसर पर महाविद्यालय के सभा भवन में रखी गई। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी शामिल हुए। संगोष्ठी के प्रमुख वक्ता . गिरीश पंकज, राकेश चॅतर्वेदी, डॉ. राकेश गुप्ता व शासकीय निकाय के

अध्यक्ष शेखर अमीन रहे। कार्यक्रम

प्राचार्य डॉ. प्रतिभा मुखर्जी साहुकार ने की। वहीं मंच संचालन छात्र परिषद प्रभारी डॉ. अजय शर्मा ने किया। कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के अतिथियों प्रज्ज्वलन से हुआ। कार्यक्रम के स्वागत उद्घोधन में महाविद्यालय की प्राचार्य ने सभी अतिथियों का औपचारिक अभिनंदन कर कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की ढिशा में मील का पत्थर

12 सितंबर तक चलेगा निशुल्क वेल्थ चेकअप कैम्प

रायपुर। बढलती आर्थिक परिस्थितियों में वित्तीय योजना अब विलासिता नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकता बन गई है। इसी जागरूकता को बढाने के लिए हेमंत सिंह और प्रमोद चौधरी के नेतृत्व में संचालित इमर्जिंग फिनाकेयर आर्थिक सलाहकार कंपनी लोगों को आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक फ्री कैंप चला रही हैं। रायपुर के भिलाई सेक्टर ६ स्थित फिनाकेयर के ऑफिस में यह कैंप ६ सितंबर से 12 सितंबर तक चलाई जाएगी। हर महीने में एक सप्ताह फ्री कैंप चलाने का निर्णय लिया हैं। कैंप के द्वारा कंपनी के विशेषज्ञ आम जनता को उनके वर्तमान आर्थिक हालात, निवेश, देनदारियां और भविष्य की आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उनको अवगत करवा रहे हैं, ताकि लोग अपनी वित्तीय खामियों को पहचानकर समय रहते अपनी रणनीति में सुधार कर पाएंगे।

माना क्षेत्र में इस बार 15 हजार से 1 लाख 20 हजार तक मूर्ति हो रही तैयार

आकार लेने लगीं देवी प्रतिमाएं, कोलकाता और कानपुर से मंगाई मिट्टी, अब इससे मिलेगी मजबूती

रायपुर। शक्ति और साधना का शारदीय नवरात्रि महापर्व 22 सितंबर से शुरू होगा। शहर और आसपास कार्नर के क्षेत्रों में 500 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर देवी न्यूज प्रतिमाओं की स्थापना होगी। माना में वर्तमान में 60 से अधिक स्थानों पर देवी प्रतिमाएं आकार ले रही हैं। इन्हें बंगाल से आए कलाकार बना रहे हैं। खास बात ये है कि बंगाली कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कलात्मक प्रतिमाओं की मांग को बढता देख स्थानीय मूर्तिकारों ने भी बंगाल से कारीगर बुलाना शुरू कर दिया है। जो स्थानीय मूर्तिकार स्थानीय मिट्टी से ही मूर्तियां गढ़ते थे, वे अब खुद भी कोलकाता, कानपुर, जनकपुर और शाहगंज आदि से गंगा और नर्मदा की मिट्टी मंगाने लगे हैं। बडे मूर्तिकार तो एजेंटों के माध्यम से बुलवाते हैं, परंतु छोटे मूर्तिकार स्थानीय हार्डवेयर शॉप और मिट्टी बेचने वाले अन्य दुकानदारों के यहां से कोलकाता की मिट्टी जरूरत के मताबिक खरीदकर ले जाते हैं। इसकी एक बोरी 15 से 18 किलो तक की



पिछले वर्ष से कीमत में ५ से १० प्रतिशत वद्धि

माना के मूर्तिकार अजय प्रजापति और करोंद्र के शेखर प्रजापति ने बताया कि उन्होंने भी प्रतिमा निर्माण के लिए बंगाली कलाकार बुलाए हैं। एक मूर्तिकार ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में 5 से 18 फीट तक की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इनकी लागत 15 हजार से 1 लाख 20 हजार तक भी है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रतिमाओं के दामों में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कानपुर की गंगा मिट्टी देती है प्रतिमा को मजबती

माना में प्रतिमा तैयार कर रहे कलाकार प्रवीण दत्ता ने बताया कि वे तीन तरह की मिट्टी से प्रतिमा बनवाते हैं। पहले लाल मिट्टी की परत चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद कानपुर की गंगा की मिट्टी को मजबूती लाने के लिए उसका लेप चढाते हैं। प्रतिमा जब ऑकार ले लेती हैं तो कोलकाता के सोनागाछी से मंगाई मिट्टी की परत चढ़ाते हैं। इस मिट्टी से प्रतिमा में चमक आती है। बंगालीं मुर्ति कलाकार दीपक मंडल ने बताया कि वे बंगाल के कलाकारों को बुलाकर प्रतिमाएं बनवा रहे हैं। मिट्टी कोलकाता से ही मंगाई गई है।

वस्त्र, शस्त्र और आभूषण भी कोलकाता से आएंगे

प्रवीण दत्ता ने बताया कि देवी प्रतिमा को धारण कराने वाले आभूषण, उनके शीश के बाल, शस्त्र भी कोलकाता से ही मंगाए जाते हैं। वहां के

दकानदार देवी प्रतिमा के वस्त्र और आभूषण की गुणवत्ता और बंदलाव के प्रति अधिक जागरूक हैं। माना में मां काली

प्रतिमा की स्थापना करने बताते हैं कि कोलकाता में गंगा नदी से काली मिट्टी निकालने और

सोनागाछी से मिट्टी लेने का काम जन्माष्ट्रमी के दिन से शुरू किया जाता है। मूर्तिकारों का कहना है कि कोलकाता की मिट्रों फिनिशिंग अधिक देती है, जबिक कानपुर में गंगा की मिट्टी में सफेद बालू प्रतिमा को मजबूती प्रदान करती है। लगभग 100 बंगाली कलाकार शहर में प्रतिमाएं बना रहे हैं, पर इनमें मां दुर्गा-काली की प्रतिमा की आंख विशेषज्ञ कलाकार से ही बनवाई जाती है।

सिटी स्पोर्ट्स

विश्व म्यू थाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्वं करेंगे बस्तर के युवराज



आईएफएमए वर्ल्ड म्य थाई चैम्पियनशिप अबधाबी (यू ए ई) में 10 से 20 सितंबर तक होने जा रही है। जिसमें जगदलपुर बस्तर निवासी 17 वर्षीय यवराज सिंह राजपत को भारत का प्रतिनिधित्व करने का सअवसर मिला है। भारतीय म्यू थाई दल मलेशिया में आयोजित इस प्रतियोगिता मे भाग लेने 10 सितंबर को अबू धाबी के लिए रवाना होगा। युवराज समूचे छत्तीसगढ़ से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। युवराज के पिता राजेन्द्र सिंह राजपूत भारतीय म्यू थाई दल के सहायक अधिकारी के रूप में अबू धाबी (यू ए ई) जा रहे हैं। चंकि यवराज नाबालिंग है अतः पिता को युवराज के साथ जाने की अनुमति दी गई है। 24 सदस्यीय भारतीय म्यू थाई दल में 18 खिलाड़ी 01 कोच, 02 निर्णायक, 02 ऑफिशियल और 01 नेशनल फेडरेशन ऑफिसियल शामिल हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफिशियल के रूप में भारतीय म्यु थाई दल फेडरेशन युएमएआई के महासचिव श्रीराम चौधरी के नेतृत्व में भारतीय म्यूथाई दल अबुधाबी जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य म्यू थाई संघ के समस्त पदाधिकारियों एवँ खिलाड़ियों को विश्वास है कि युवराज सिंह इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर आगामी अक्टूबर माह में ओसीए द्वारा आयोजित एशियन यूथ गेम्स बहरीन में भाग लेने वाले भारतीय म्यथाई दल में चयनित होकर बस्तर अंचल और छत्तीसगढ को अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में प्रतिस्थापित करेंगे। युवराज सिंह के चयन पर छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यूथाई एसोसिएशन के संरक्षक और प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, राज्य म्यूथाई के पदाधिकारियों, कोच सहित खेल प्रेमियों ने अच्छे प्रदर्शन हेतु शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ एमेच्योर म्यू थाई एसोसिएशन के अध्यक्ष लखन कुमार साहू और महासचिव अनीस मेमन ने यह जानकारी दी।

त्रिपुरा के विरुद्ध शशांक ने लिए ३ विकेट

रायपुर। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन डॉ.



थि म्मापी याह मेमोरियल आमंत्रण टुर्नामेंट 2025-26 आयोजन सितंबर से जारी है। जिसमें छत्तीसगढ की सीनियर टीम का दसरा मैच (09 - 12 सितंबर) बैगलुरु कर्नाटक में त्रिपुरा के विरुद्ध खेला गया। मंगलवार को पहले दिन त्रिपुरा ने टॉस

जातकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले दिन की समाप्ति तक त्रिपुरा ने अपनी पहली पारी में 84 ओवरों में 6 विकेट के नकसान पर 237 रन बना लिये है। त्रिपरा की ओर से ऋतुराज घोष रॉय ने सर्वाधिक 63 रन बनाये। दिन के अंत तक शुभम घोष 43 रन तथा विक्रम देवनाथ 31 रन बनाकर क्रीज पर जमें हुये है। छत्तीसगढ़ की ओर से शशांक तिवारी ने 3 विकेट लिए जबिक वासुदेव बरेठ तथा शाहबान खान ने 1-1 विकेट लिए। पहले दिन की समाप्ति तक त्रिपरा ने अपनी पहली पारी में 237 रन बना लिये है।

महिला क्रिकेट में ऐश्वर्या का शानदार पदर्शन

रायपुर। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की



ओर से सीनियर वमेंस इंटर स्टेट टी-20 अभ्यास मैच में छत्तीसगढ़ सहित गोवा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की टीमें हिस्सा ले रहीं है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ का हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध अहमदाबाद में खेला गया। छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।

छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुये 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 128 रन बनाये। छत्तीसगढ़ की ओर से ऐश्वर्या सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुये 31 रन तथा तरन्नुम पठान ने 29 रनों का योगदान दिया। हिमाचल प्रदेश की ओर से सुष्मिता कुमारी ने 2 विकेट प्राप्त किये। 129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हिमाचल प्रदेश 20 ओवरों में 10 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। हिमाचल प्रदेश की ओर से मोनिका देवी ने सर्वाधिक 25 रन तथा देवांशी वर्मा ने 18 रनों का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की ओर से महक नरवसे ने 3 विकेट प्राप्त किये। छत्तीसगढ़ ने मैच 31 रनों से जीत लिया।

चाहते हैं स्वस्थ रहें बच्चे, बेहतर तरीके से हो विकास, तो जान लीजिए ये जरूरी बातें

बच्चों की सेहत के लिए रहें हमेशा सतर्क, नियमों का पालन कर नन्हे-मुन्नों को बनाइए तंदुरुस्त

को बेहतर भविष्य का आधार माना जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ बच्चों के आहार पर विशेष ध्यान देते रहने की सलाह देते हैं। नवजात को मां के दूध और दो साल से अधिक उम्र के बच्चों को नियमित रूप से विटामिन्स-मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्वों से भरपुर खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास के साथ भविष्य में उन्हें कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने में मददगार हो सकते हैं।

बच्चों के लिए पोषण वयस्कों के पोषण के समान जरूरी है। नियमित रूप से आहार के माध्यम से विटामिन्स, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का सेवन उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी माना जाता है। अमेरिका में आहार दिशानिर्देशों के अनुसार बच्चों को पौष्टिक चीजें तो खिलानी ही चाहिए साथ ही चीनी, संतुप्त वसा या

भिलाई। छठवीं राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप

2025 सीनियर व सीनियर 'अ' का आयोजन 11 सितंबर

से 14 सितंबर तक अग्रसेन भवन सेक्टर 6 भिलाई में

किया जा रहा है। जिसमें देश भर के 32 राज्यों के 800 से

ज्यादा प्रतिभागी अपने योग कौशल का प्रदर्शन करेंगे।

अध्यक्ष

उन्होंने बताया कि उदघाटन समारोह 11 सितंबर

गुरुवार को सुबह 11:00 बज अग्रसन भवन सेक्टर 6 में

छत्तीसगढ़ योगासन स्पोटर्स

गोस्वामी जयंत विष्णु भारती ने

बताया कि आयोजन का मकसद

छत्तीसगढ़ की जनता को योग के

प्रति जागरूक करने के साथ-

साथ देश और दुनियाभर में योग

को एक प्रमुख खेल विधा के तौर

पर स्थापित करने का है।

एसोसिएशन के



नमक वाली चीजें कम से कम दें।

हमारे दैनिक जीवन में पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आइए पोषण विशेषज्ञ से समझते हैं कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें जरूरी हैं।

पोषण विशेषज्ञ पारुल शर्मा एक पोस्ट में लिखती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक

क्षमता को मजबत बनाने की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि रोजाना आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल जरूर शामिल हों। रंग-बिरंगी सब्जियां, साबृत अनाज जैसे कि गेहूं की रोटी, दलिया, पॉपकॉर्न, क्विनोआ को आहार का हिस्सा बनाएं। रोजाना दुध और दही बच्चों को जरूर दें।

आयोजित है। जिसमें मुख्य अतिथि छत्तीसगढ विधानसभा

के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह होंगे और अध्यक्षता दर्ग

सांसद विजय बघेल करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर

विधायक रिकेश सेन, वर्ल्ड योगासन एवं योगासन भारत

पतंजिल भारत स्वाभिमान न्यास के सहराज्य प्रभारी अनूप

बंसल और समाजसेवी एवं उद्योगपित विजय कुमार गुप्ता

के महासचिव तथा हरियाणा

योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर

जयदीप आर्य, नगर पालिका

निगम धमतरी के महापौर

जगदीश रामु रोहरा, दुर्ग महापौर

अलका बाघमार, भारतीय

जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के

प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास,

ये पोषक तत्व बहुत जरूरी

बच्चों के शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बाल, और नाखूनों के विकास में मदद करता है। इसके लिए दालें, दूध, दही, अंडे, मांस, मछली और नट्स का जरूर सेवन किया जाना चाहिए।

प्रोटीन की ही तरह कैल्शियम वाली चीजें भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी मानी जाती हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबती के लिए जरूरी होता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास और लंबाई बढ़ने में भी सहायता करता है।



मस्तिष्क और पाचन कैसे रखें ठीक

बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए ओमेगा-3 बहुत जरूरी है। ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए मछलियों और नट्स को आहार में शामिल करें। यह बच्चों के मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, सीखने और याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र की बीमारियों के खतरे से बचाने के लिए भी ये जरूर है। इसी तरह आयरन वाली चीजें बच्चों के रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करती हैं, इससे एनीमिया का खतरा कम

राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कल से भिलाई में कैसरोल में चावल रखने का जान लें सही आईआईटी मद्रास के सॉफ्टवेयर से



Contact For

Advertisement

79871 19756

90981 38778



बनके चावल के ऊपर जम जाता है। कैसरोल का उपयोग हम सभी गर्म रोटी, चावल और सब्जी को अधिक समय तक गर्म रखने के लिए करते हैं। कैसरोल में खाना रखने से वह लंबे समय तक गर्म तो होता है, लेकिन खाना के गर्माहट से निकलने वाले भाप के कारण चावल गिला हो जाता है। ऐसे में चावल में भाप का पानी इकट्ठा हो जाता है, जो चावल के पूरे स्वाद को बिगाड देता है। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे चावल लंबे समय तक गर्म भी रहेगा और भाप का पानी भी इकट्ठा नहीं होगा।

मोटापा कम करने के लिए रोज टहलें या दौडें?

वजन कम करने के लिए सुबह के वक्त दौड़ना या पैदल टहलना दोनों ही लाभकारी हो सकता है। रनिंग और वॉकिंग दोनों शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन सवाल है कि वजन घटाने के लिए रनिंग और वॉकिंग में ज्यादा फायदेमंद क्या है। शरीर को फिट और सेहतमंद रखने के लिए रोजाना सुबह पैदल टहलने या रनिंग की सलाह दी जाती है। कई लोग वॉक पर जाते हैं, तो कुछ रनिंग करते नजर आ जाते हैं। हालांकि कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि वॉक करने से ज्यादा जल्दी वजन कम होता है या दौड़ लगाने से जल्दी मोटापा घटता है। अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं



लेकिन कंफ्यूज हैं कि सुबह वॉक पर जाएं या रिनंग पर तो दोनों के अंतर और उनके फायदे व नुकसान के बारे में जान वजन घटाने के लिए क्या करें ?:- वजन कम करने के

लिए सुबह के वक्त दौड़ना या पैदल टहलना दोनों ही लाभकारी हो सकता है। रनिंग और वॉकिंग दोनों शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन सवाल है कि वजन घटाने के लिए रनिंग और वॉकिंग में ज्यादा फायदेमंद क्या है। रनिंग से कितनी कैलोरी बर्न होती है:- वजन कम

करने के लिए शरीर में जमा कैलोरी को बर्न किया जाता है। दौडने या पैदल चलने में से ज्यादा कैलोरी कैसे बर्न हो सकती

है, ये जानकर आप वजन घटाने के लिए ज्यादा प्रभावी तरीका अपना सकते हैं। रोजाना पैदल चलने की तुलना में दौड़ने से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। अगर आपका वजन 72 किलो है तो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाने से आपका वजन कम हो सकता

रनिंग की शुरुआत वॉक से करें :- वैसे तो चलने की बजाय दौडने से दोगुनी तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है लेकिन इसकी

शुरुआत आपको हमेशा वॉक से ही करनी चाहिए। पैदल चलते हए अपनी स्पीड को तेज करें। जब आपकी चलने की स्पीड बढ़ जाए तो रनिंग करना शुरू करें। इससे शरीर की चर्बी आसानी से घटेगी। जितना तेज आप दौडेंगे, उतनी ज्यादा केलोरी को बने किया जा सकता है।

तरीका, भाप के पानी से नहीं होंगे खराब परखेंगे नौजवानों का योग कौशल



किटी पार्टी, बर्थ डे पार्टी के लिए उपयुक्त 110/-,160/-, 210/-4 थाली पर 1 थाली FREE (पार्सल) रायपुर हास्टल शुगर फ्री थाली पेंशनबाड़ा, पुलिस पब्लिक स्कूल के सामने, रायपुर © 88780 00127, 79998 44943

नये जमाने की जरूरत aura astrology क्णडली- स्वास्थ्य- चक्र -औरा में एक साथ सुधार

50 सालों में बहुत कुछ बदल गया... नये फार्मूले की जरूरत ज्योतिष का ज्ञान नहीं, जन्म का सही समय नहीं, मिट्टी से संपर्क नहीं, अटैच बाथरूम, मिलावटी गहने, रत्नों पर सावधानी राजेश श्रीवास्तव, ११ ए. रवि नगर, पंडरी, रायपुर (छग) ७६९१९ ०६७५५, ७६९२९ ५११७३





रिंग रोड नं. -1 संतोषी नगर चौक, बोरिया रोड रायपुर (छ.ग.) 9200003357 ★ 7999898750



Starting Price

45.000/-

2 Year

कोई भी पुरानी गाड़ी लाएं और DYNAMO ले जाएं।

आज ही ले

फ्री-टेस्ट ड्राइव



शोधग्रंथ- "छतीसगढ के प्राचीन किलों की स्थापत्य कला माननीय विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छ.ग. शासन के उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र कं. 1889 नया रायपुर दि. 4.8.2025 के अनुसार छत्तीसगढ के समस्त शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को महाविद्यालयीन ग्रंथालय हेतु उक्त शोधग्रंथ को उपयोगितानुसार कय किया जाने का आदेश जारी किया गया है। प्राप्ति स्थल-सेन्ट्रल बुक हाउस, पुस्तक प्रतिष्ठान सदर बाजार रायपुर आदि पुस्तक दुकानों में उपलब्ध है, पृष्ठ संख्या 420, मुल्य 700 रू.। महाविद्यालयों के ग्रंथालयों हेतु 25% छुट के लिए सम्पर्क करे – डॉ.टी.आर.रामटेके, संजय नगर, मुख्य मार्ग, रायपुर



शोधग्रंथ- "छत्तीसगढ के प्राचीन किलों की स्थापत्य कला"

शोधलेखक डॉ.टी.आर.रामटेके। (पीएच.डी. उपाधि हेतु इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छ.ग. से स्वीकृत शोधप्रबंध)। जिसमें छत्तीसगढ़ के किले, पुरातात्विक स्मारकों की स्थापत्य कला तथा छत्तीसगढ के प्राचीन काल से कलचुरी काल (ई.1750) तक का राजनीतिक इतिहास को लगभग 150 रेखाचित्र एवं 450 रंगीन छायाचित्र के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। जिसे राज्य के महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को समझना आवश्यक है, जो सीजीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है।

फिल्म इवेंट हॉलीवुड

जॉनसन के वजन से हर कोई शॉक्ड, लोग बोले- चट्टान से कंकड कैसे बन गए

हॉलीवुड सुपरस्टार और फॉर्मर रेस्लिंग आइकन ड्वेन 'द रॉक'

ट्रांसफॉर्मेशन




डब्ल्युडब्ल्युआई और हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपर्न लार्जर-दैन-लाइफ इमेज बनाने में दशकों लगाने वाले इस अभिनेता का वजन एक बार फिर कम हो गया है। उन्हें देखकर पहचानना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि इवेन ₹द रॉक₹ जॉनसन ने 1 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 के रेड कार्पेट पर कदम रखते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी मस्कुलर बॉडी के लिए मशहूर इस हॉलीवुड स्टार ने अपनी बेहद दुबली-पतली काया से फैंस को शॉक्ड कर दिया। ब्लू कलर की बटन-अप शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने जॉनसन काफी स्लिम लग रहे थे। उनके साथ उनकी को-एक्ट्रेस एमिली ब्लंट भी थीं। ये जोड़ी फिल्म ₹द स्मैशिंग मशीन₹ में नजर आएगी। रिपोर्टों के अनुसार, एक्टर ने मच अवेटेड बायोपिक 'द स्मैशिंग मशीन' की तैयारी के तहत लगभग 60 पाउंड वजन कम किया है, जो उनके 300 पाउंड से घटकर लगभग 240 पाउंड रह गया है। इस फ़िल्म में जॉनसन दिग्गज फाइटर मार्क केर की भूमिका में नजर आ रहे हैं. एक ऐसा किरदार जिसके लिए अभिनेता को एक डामैटिक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पडा। जॉनसन ने वेट लॉस के लिए अपने हाई कैलोरी डाइट को हाई-प्रोटीन, लेस शुगर डाइट में बदलने के बारे में भी बात की, जिससे उनके वर्कआउट रूटीन में सुधार हुआ। वहीं अब फैंस ड्वेन जॉनसन के वेटलॉस को लेकर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक ने लिखा, "चट्टान से कंकड़ तक?

टॉलीवुड

'मां सीता के लिए कास्टिंग खराब है' यूजर्स के निशाने पर आईं साई पल्लवी

भारी-भरकम बजट में बन रही 'रामायणम्' फिल्म में साई

पल्लवी नजर आने वाली हैं। वो हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुईं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कई यूजर्स नितेश तिवारी की फिल्म में उनकी कास्टिंग को लेकर सवाल कर रहे हैं।



वायरल हो रहे हैं। कुछ उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं तो किसी को 'रामायणम्' में माता सीता के लिए उनकी कास्टिंग पसंद नहीं आ रही है। उनके वीडियो पर सभी के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं। साई पल्लवी के वायरल वीडियो पर युजर्स ने खूब रिएक्ट किया है। एक ने कहा, 'पुरानी रामायण बेस्ट है।' दसरें ने कहा. 'मां सीता के लिए इससे बरा कोई विकल्प नहीं हो सकता।' अन्य ने कहा, 'मां सीता के लिए बेजान चेहरा अच्छी पसंद नहीं है! कास्टिंग बहत खराब है।' हालांकि, साई पल्लवी के फैंस उनके सपोर्ट में हैं। उनका कहना है कि वो बहुत प्यारी दिख रही हैं और 'रामायण' में मां सीता के रोल के लिए परफेक्ट है। 'रामायणम्' फिल्म के बारे में बता दें कि इसका डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं और स्क्रिप्ट श्रीधर राघवन ने लिखा है। फिल्म में रणबीर कपूर राम के किरदार में हैं। इनके अलावा यश, रवि दुबे, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, कुणाल कपूर, शीबा चड्ढा, इंदिरा कृष्णन और शोभना हैं। इस फिल्म का बजट भारी-भरकम है। इसे 4 हजार करोड़ से 4500 करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है। ये दो पार्ट में रिलीज होगी।

सस्पेंस थ्रिलर 'खारून पार' 12 को बड़े पर्दे पर, दर्शकों को बेसब्री से इंतजार



व्यक्ति की मानसिक स्थिति समाज पर कैसा प्रभाव डालती है? इसे आधार बनाते हुए बनी छत्तीसगढ़ की पहली संस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'खारून पार' आगामी 12 सितंबर को छत्तीसगढ़ के 50 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस संबंध में स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम के सदस्यों ने बताया कि यह कहानी में 5 लोगों की अलग अलग कहानी को एक स्थान पर लाकर जोड़ती है और फिल्म के अंत तक कायम सस्पेंस लोगों को बांधे रखता है। टीम ने बताया कि पूरी कहानी छत्तीसगढ़ी संवाद से भरपूर है साथ ही फिल्म में लव स्टोरी और 5 गाने भी हैं। फिल्म का बजट तकरीबन 90 लाख के आसपास अनुमानित बताया गया साथ ही टीम ने बताया कि परंपरागत छत्तीसगढ़ी फिल्म की लीक से हटकर इस फिल्म के लिए काम करने के दौरान कुछ नयापन का एहसास हुआ। फिल्म के निर्माता निर्देशक दिव्यांश सिंह ने बताया कि वे मूलतः जांजगीर के निवासी हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद फोटोग्राफी से शुरुआत करते हुए छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कहानी फिल्मों से कुछ हटकर करने की सोच का परिणाम है यह फिल्म। इस दौरान फिल्म के पात्र शील वर्मा, विशाल सहित टीम मौजूद रहे।

साल 2025 तो आधे से ज्यादा बीत चुका है लेकिन मेंस फैशन में ट्रेंड की बात करें तो ढीले-ढाले ट्राउज़र्स, ओवरसा्इज़्ड ब्लेज़रू और मुलायम सी ल्हराती शर्ट्स की भरमार देखने को मिल् रही है। यह ट्रेंड स्टाइल से समझौता किए बिना सहजता को प्राथमिकता दे रहा हैं। हल्के पेस्टल और न्यूट्रल रंग पहनावे पर छा गए हैं, जो वॉर्डरोब में एक नयापन और जीवंतता भर रहे हैं।

मेंस फैशन का

त्वचा के काले धब्बों को न करें नजर अंदाज

आजकल बदलती जीवन-शैली और गलत आदतों के कारण त्वचा पर काले. भरे. गलाबी. ग्रे या लाल रंग के धब्बों की समस्या देखी जा रही है, जो अक्सर चेहरे, माथे और नाक पर अधिक दिखाई देते हैं। इनको मेलास्मा या हाइपरपिग्मेंटेशन भी कहा जाता है। अगर आपके चेहरे पर बार-बार काले धब्बे उभर रहे हैं तो इसे गंभीरता से लें, क्योंकि कई बार ये आपकी संदरता को नकसान पहुंचा देते हैं। बेदाग चेहरे का नर तो देखते ही बनता है, मगर इसे बरकरार रख पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि कभी चेहरे पर मुंहासे हो जाते हैं तो कभी काले धब्बे। आजकल बदलती जीवन-शैली और गलत आदतों के कारण त्वचा पर काले, भूरे, गुलाबी, ग्रे या लाल रंग के धब्बों की समस्या देखी जा रही है, जो अक्सर चेहरे, माथे और नाक पर अधिक दिखाई देते हैं। इनको मेलास्मा या हाइपरपिग्मेंटेशन भी कहा जाता है।

हाइपरपिग्मेंटेशन और मेलास्मा

हाइपरिपग्मेंटेशन त्वचा पर पडने वाले गहरे धब्बों को कहा जाता है। ये तब होते हैं, जब त्वचा में मेलेनिन नामक प्रोटीन की मात्रा बढ जाती है। इससे त्वचा का रंग गहरा और काला नजर आने लगता है, जिस कारण डार्क स्पॉट दिखने लगते हैं। इसी तरह मेलास्मा भी मेलेनिन के अधिक मात्रा में बनने के कारण होता है, जिसमें गालों पर और नाक के आस-पास काले, भूरे, गुलाबी धब्बे बन जाते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे पर इसके निशान छोटे होते हैं तो कुछ के चेहरे पर बड़े नजर आते हैं।



क्या है वजह

ये अक्सर धुप में निकलने, उम्र बढने, हार्मोन असंतुलन या त्वचा के आघात आदि से उत्पन्न हो सकते हैं। यह समस्या महिलाओं में अधिक देखी जाती है. क्योंकि वे जीवन में ढेर सारे हार्मोनल परिवर्तनों से गुजरती हैं, फिर चाहे वो उम्र बढ्ना हो, गर्भावस्था हो या रजोनिवृत्ति। ये बदलाव चेहरे पर धब्बे और पिग्मेंटेशन का कारण बनते हैं। वहीं फंगल संक्रमण भी चेहरे पर खुजली और काले धब्बे का एक आम कारण है। आज जंक फूड भी हमारी जीवन-शैली का अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके अधिक सेवन से आंशिक लिवर फंक्शन की समस्या हो सकती है। इससे भी चेहरे का रंग बदलने लगता है। इसके अलावा बढता वर्क लोड भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है।

खूबसूरत और ट्रेंडी घाघरा लुक को बनाएंगे परफेक्ट

बाद नवरात्रि का स्वागत करने हम सब तैयार रहेंगे। ऐसे में फेस्टिवल लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ट्रेंडी डिजाइन वाले घाघरा को वियर करें। अपनी पसंद को देखते हुए अभी से तैयारी कर लें। क्योंकि घाघरा पहनने के बाद आपका लुक काफी सुंदर दिखेंगा। बस आपको इसे खरीदने से पहले डिजाइन का खास ध्यान रखना होगा।

सुंदर दिखना हम सभी को पसंद होता है। इसलिए जब लुक को क्रिएट करने की बात आती है, तो हम अक्सर ट्रेंडी डिजाइन वाले कपडों को स्टाइल करते हैं। साथ ही, लुक को क्रिएटिव बनाते हैं। इस फेस्टिवल पहनने के लिए आप ट्रेंडी डिजाइन वाले घाघरा को स्टाइल कर सकती हैं। घाघरा में आपको अलग-अलग तरह के पैटर्न और कलर्स मिल जाएंगे। जिसे पहनकर आप अच्छी लगेंगी। आइए आपको बताते हैं घाघरा के लेटेस्ट डिजाइंस।





गोटा पट्टी वर्क वाला घाघरा करें वियर

लुक को क्रिएटिव बनाने के लिए आप गोटा पट्टी घाघरा को वियर कर सकती हैं। इस तरह के घाघरा डिजाइंस पहनने के बाद लुक में चार चांद लगा देते हैं। इसमें आपको डबल शेड कलर मिलते हैं। साथ में गोटा पट्टी वर्क भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में घाघरा पहनने के बाद अच्छा लगता है। आप भी इसे ट्राई करके लुक को अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकती हैं। साथ ही, लुक को और भी ज्यादा अच्छे से क्रिएट कर सकती हैं। मार्केट में इस तरह के घाघरा आपको 1,000 से 2,000 रुपये में मिल जाएंगे।

घारचोला डिजाइन वाला घाघरा करें वियर

आप ट्रेडिशनल गुजराती लुक को क्रिएट करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप घारचोला डिजाइन वाले घाघरा को वियर कर सकती हैं। इस तरह के घाघरा पहनने के बाद अच्छे लगेंगे।

इन लोगों को गलती से भी नहीं करना चाहिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल

आपने अक्सर दादी-नानी को ये कहते सुना होगा कि त्वचा से संबंधी सभी परेशानियों को दूर करने में मल्तानी मिट्टी आपकी मदद करेगी। ऐसा होता भी है। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमान न सिर्फ त्वचा संबंधी परेशानियों में, बल्कि बालों की परेशानियां दुर करने के लिए भी किया जाता है। षये अपनी अब्जॉर्ब करने की क्षमता, पोषण तत्वों और शतिल प्रभाव के लिए जानी जाती है। इसी वजह से ज्यादार लोग बिना सोचे इसका इस्तेमाल चेहरे पर कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मल्तानी मिट्टी हर किसी के चेहरे के लिए फायदेमंद नहीं होती। भले ही मुल्तानी मिट्टी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को इसे लगाने से बचना चाहिए। यहां हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन लोगों को त्वचा पर मिल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

रुखी त्वचा वाले लोग

अगर आपकी त्वचा पहले से ही रूखी है तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करने से बचें। दरअसल, मुल्तानी मिट्टी तेल और नमी को सोखने

> भारत को अक्सर त्यौहारों का देश कहा जाता है। अभी गणेश चतुर्थी गई है और अब आगे नवरात्रि, दशहरा और दीपावली का इंतजार

> है। इन त्यौहारों में अपना पारंपरिक अंदाज दिखाना चाहते हैं तो इन अभिनेताओं के लुक्स से टिप्स लेकर तैयार हों। यहां हम आपको

> ऐसे अभिनेताओं के लुक दिखाने

जा रहे हैं, जो अक्सर एथनिक

रितेश देशमुख का पहला

हुँदू धर्म में पूजा के वक्त धोती-

कुर्तो पहनने का रिवाज होता है।

ऐसे में आप रितेश के इस लुक से

टिप्स लेकर अपने लिए इस तरह

का धोती-कुर्ता तैयार करा सकते

हैं। ये आपको स्टाइलिश दिखने के

इस तरह का ऑरेंज रंग का वर्क

वाला कुर्ता भी आप नवरात्रि

उत्सव में कैरी कर सकते हैं। इस

कुर्ता लुक में चार चांद लगाने के

लिए सफेद रंग की पायजामी

साथ पारंपरिक लुक भी देगा।

दूसरा लुक

अवतार में नजर आते हैं।



का काम करती है। इसलिए जिनकी त्वचा पहले से ही बहुत सूखी हो, उनके लिए इसका उपयोग त्वचा को और अधिक शुष्क कर सकता है। त्वचा की नमी कम होने के बाद आपकी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं।

संवेदनशील त्वचा वाले लोग

अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तब भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में प्राकृतिक खनिज होते हैं, जो कुछ लोगों की संवेदनशील त्वचा पर जलन या एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ऐसे में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो पहले पैच टेस्ट अवश्य करें।

कमजोर हो गए नाखून तो अपनाएं घरेलू नुस्खे

जब बारिश लगातार होने लगती है, तो ये कई परेशानियां पैदा करने लगती है। इन परेशानियों में त्वचा और बाल संबंधी समस्याएं सबसे अहम हैं। ऐसे में बाल और त्वचा का ध्यान रखते-रखते हम अपने नाखूनों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जबिक बारिश की वजह से नाखून भी कमजोर होकर टूटने लगते हैं। अगर आपके नाखून भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कमजोर हो गए हैं तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर आप इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। यहां इस लेख में हम आपको नाखून मजबूत करने और इनका ध्यान रखने के लिए कुछ नुस्ख बताने जा रहे हैं।

नारियल तेल से मालिश

अगर आपके नाखुन कमजोर हो रहे हैं तो हर रोज रात को सोने से पहले नाखूनों पर गुनगुने नारियल तेल से हल्की मालिश करें। ये नाखूनों और उसके आसपास की त्वचा को पोषण देता हैं। इससे नाखून मजबूत

नींबू और जैतून तेल

ये मिश्रण नाखूनों को मजबूती देता है और उन्हें चमकदार बनाता है। इसके इस्तेमाल के लिए 1 चम्मच जैतून तेल में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर नाखूनों पर लगाएं।



एप्पल साइडर विनेगर

नाखनों की मजबती बढाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए विनेगर को पानी में मिलाकर नाखूनों को 10-15 मिनट तक डुबोएं और फिर धो लें। एप्पल साइडर विनेगर में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो नाखूनों को मजबूत करते हैं। इसका इस्तेमाल आप पैरों के नांखुनों को भी मजबूत बनाने के लिए कर

बादाम तेल

कमजोर नाखूनों के लिए हर रोज नाखूनों पर बादाम तेल से मालिश करें। बादाम तेल में विटामिन E होता है जो नाखूनों को मजबूत करने में मदद करता है।

कानर न्यूज

खुशियां मनाने के लिए अगर आउटफिट भी बेहतर हो तो लोग करेंगे तारीफ

दिखाना है पारंपरिक अंदाज तो अभी से खरीद लें ऐसे आउटिफट



पहनें, तभी इसका रंग खिल कर स्टाइलिश अंदाज दिखाएं। सामने आएगा।

ऋत्विक धनजानी का पहला लुक

ऋत्विक धनजानी हर साल मां शक्ति की उपासना करते हैं। ऐसे में आप उनके इस लुक से टिप्स ले सकते हैं। पूजा के वक्त ऐसा आउटिफट आपको पारंपरिक टच देने का काम करेगा। इसके साथ चाहें तो ढीला पायजामा पहनें ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

दूसरा लुक

नीले रंग का ऐसा मिरर वर्क वाला कुर्ता आपको स्टाइलिश लुक देने का काम करेगा। ऐसे में अगर आप कुछ सिंपल लुक कैरी करना चाहते हैं तो ऋत्विक धनजानी के इस लुक से टिप्स लें और अपना

करण वाही का पहला

अगर चाहें तो करण वाही के इस कुर्ता लुक से टिप्स लेकर आप अपना आउटफिट तैयार करा सकते हैं। लाल रंग वैसे भी पूजा में पहनना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस तरह का कुर्ता और पायजामा भी नवरात्रि उत्सव में पहन सकते हैं।

दूसरा लुक



सफेद रंग के कुर्ते और चूड़ीदार पायजामी के साथ अगर आप इस तरह की हाफ जैकेट पहनेंगे तो भी आपका लुक काफी स्टाइलिश दिखेगा। इस लुक के साथ पैरों में मोजरी ही पहनें। ताकि आपका लुक पूरी तरह से पारंपरिक लगे।

